

न्यूज ब्रीफ

भ्रूण केमिकल में डूबोकर कूरियर किया



लखनऊ। लखनऊ एयरपोर्ट पर कूरियर में 1 महीने के बच्चे का शव मिला है। मंगलवार सुबह कार्गो के सामान की स्कैनिंग में बाँडी डिटेक्ट हुई। शव प्लास्टिक के डिब्बे में पैक था। अंदर लिक्विड भरा था। डिब्बे को इंडिगो की फ्लाइट 6ई 2238 से लखनऊ से मुंबई भेजा जा रहा था। कूरियर बुक कराने वाले एजेंट शिव बरन को सीआईएसएफ ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। उससे पूछताछ जारी है। लखनऊ एयरपोर्ट में कार्गो स्टाफ मंगलवार सुबह कार्गो के लिए बुक होने वाले सामान की स्कैनिंग कर रहा था। इसी दौरान एक प्राइवेट कंपनी का कूरियर एजेंट कार्गो के जरिए सामान बुक कराने आया।

ताजमहल को बम से उड़ाने की धमकी



आगरा। ताजमहल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से सनसनी फैल गई। ई-मेल प्राप्त होने के बाद ही सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो गई। ताज की सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत कर दिया गया। इसके साथ ही यहां बम निरोधक दस्ता और ड्रॉग स्क्वाड भी पहुंच गया। इस फाले के दौरान पर्यटकों में किसी तरह की अफरा-ताफरी न फैले इसका भी विशेष ध्यान रखा गया। ताजमहल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरा ई-मेल आने के बाद ताज पर पुलिस अलर्ट हो गई है। बम निरोधक दस्ता सहित अन्य टीमें पहुंचकर जांच में लगी हुई हैं। डीसीपी सिटी सुरज राय ने बताया कि वही ताजमहल के आसपास सुरक्षा पहले से ही रहती है। उसे और पुखा किया गया है। चेंकिंग की जा रही है। किसी तरह की संदिग्ध वस्तु तो नहीं रखी गई है।

बदायूं जामा मस्जिद में नीलकंठ मंदिर का दावा



बदायूं। यूपी में संभल के बाद अब बदायूं की जामा मस्जिद चर्चा में है। हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि जामा मस्जिद असल में नीलकंठ महादेव का मंदिर है। मंगलवार को जिला कोर्ट में हिंदू पक्ष ने सर्वे की मांग रखी तो मुस्लिम पक्ष ने जवाब दिया कि ये सिर्फ माहोल बिगाड़ की कोशिश है। अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। उस दिन कोर्ट तय करेगा कि किस सुनने योग्य है या नहीं। मुस्लिम पक्ष के वकील अनवर आलम ने कोर्ट में कहा- यह मामला सुनने योग्य नहीं है। हिंदू महासभा को इसमें वाद दायर करने का कोई अधिकार नहीं। जब यह खुद कह रहे हैं कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, तो जाहिर सी बात है।

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आलोक चक्रवाल बने नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य

► नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र ने प्रो. आलोक कुमार चक्रवाल का अपनी गवर्निंग काउंसिल में स्वागत किया



कुलपति कार्यालय ने एक आधिकारिक पत्र में कहा, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय (एक केंद्रीय विश्वविद्यालय) बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के कुलपति प्रो. आलोक कुमार चक्रवाल ने नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र की गवर्निंग काउंसिल सदस्य में अपना नाम शामिल करने

के लिए अपनी स्वीकृति दे दिया है। छत्तीसगढ़ स्थित गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आलोक कुमार चक्रवाल 24 वर्षों से अधिक अनुभव वाले एक कुशल शिक्षाविद् हैं। उन्होंने कई पीएचडी और एम.फिल. विद्वानों का मार्गदर्शन किया है और अपने शैक्षणिक जीवन में तीन स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में कई सर्वश्रेष्ठ शोधपत्र प्रस्तुत कर जीते हैं और महत्वपूर्ण शोध परियोजनाओं का नेतृत्व किया है। नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र के अध्यक्ष प्रो. जसमी मोहम्मद ने इस विकास का स्वागत किया और इस बात पर जोर दिया।

महाराष्ट्र में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की जोरदार तैयारी केंद्रीय मंत्रियों समेत देशभर से 400 से ज्यादा साधु-संतों को निमंत्रण



मुंबई। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद सरकार गठन की गतिविधियां तेज हो गई हैं। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में शाम 5 बजे होगा और इस समारोह को भव्य बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में 70 से ज्यादा वीवीआईपी नेता शामिल होंगे। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजगण एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी समेत कैबिनेट के कई मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों को भी निमंत्रण भेजा गया है।

400 साधु-संतों को निमंत्रण

दिलचस्प बात यह है कि इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए देशभर के 400 से ज्यादा साधु-संतों को भी निमंत्रण भेजा गया है। साथ ही विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों को भी निमंत्रण भेजा गया है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रित संतों में जगतगुरु नरेंद्रचार्म महाराज, गोविंददेव गिरा महाराज, बागेश्वर बाबा, महामंडलेश स्वामी विश्वेश्वरानंद महाराज, जैन संत लोकेश मुनि, बंजारा संत, सिख संत, बौद्ध भिक्षु शामिल हैं। इसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी और महाकाल मंदिर के मुख्य पुजारी समेत महाराष्ट्र के सभी प्रमुख मंदिरों के मुख्य पुजारियों को भी आमंत्रित किया गया है।

स्टार्ट-अप और वोकल-फॉर-लोकल के स्वदेशी भाव ने देश की अर्थव्यवस्था को किया इंग्लैंड से आगे- मुख्यमंत्री

उद्यमशीलता के संवर्धन का सशक्त माध्यम हैं मेले

मुख्यमंत्री बालाघाट में स्वदेशी मेले में हुए शामिल



भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वदेशी स्टार्ट-अप, मेक-इन-इंडिया और वोकल-फॉर-लोकल के प्रेरणादायक आह्वान ने देश में उद्यमिता के पुनर्जागरण की अलख जगाई है। भारत आज इंग्लैंड को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार को बालाघाट में स्वदेशी मेले को संबोधित कर रहे थे। डॉ. यादव ने मेले में शासकीय विभागों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। साथ ही युवाओं को

ऑफर लेटर और दिवांगत प्रमाण-पत्र प्रदान किए और उपस्थित युवाओं से संवाद किया। स्वदेशी विचारक श्री भैया जी जोशी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने स्वदेशी मेले में आने के लिए श्री भैयाजी जोशी का आभार माना। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मेला का अर्थ मेल-लव है और इसमें व्यापार के साथ ही सांस्कृतिक मेलजोल को बढ़ावा देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी मेले का प्रारंभ वर्ष 1999 से निरंतर विभिन्न स्थानों पर किया जा रहा है। मुंबई से प्रारंभ स्वदेशी

प्रदेश में हुए 17 मेडिकल कॉलेज मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के नागरिक के लिए भी अच्छे स्वास्थ्य और उसे विकित्सा सुविधाएं सुलभ कराने के लिए प्रदेश सरकार संकल्पबद्ध है। प्रदेश में वर्ष 2003-04 में 5 मेडिकल कॉलेज थे, जिन्हें बढ़ाकर हमने 17 कर दिया है। इतना ही नहीं प्रदेश में निजी विकित्सा महाविद्यालयों की संख्या भी 13 हो गई है। आने वाले वर्ष में 12 और सरकारी कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। साथ ही 13 नए आयुर्वेदिक कॉलेज भी खोले जाएंगे, इनमें से एक बालाघाट में भी होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्वदेशी मेले की सराहना करते हुए कहा कि इसमें आयुर्वेदिक औषधियों को बिट्टी के लिए प्रशिक्षित किया जाना अच्छी पहल है। कोविड त्रासदी के दौर में हमारी स्वदेशी आयुर्वेदिक विकित्सा प्रणाली की जीवन-रक्षक शक्ति की महत्ता पूरे देश ने जानी समझी। आयुर्वेद में असीम संभावनाएं हैं, इसलिए प्रदेश सरकार इसे बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है।

मेले में स्वदेशी उत्पादों के प्रदर्शन और विक्रय से छोटे-बड़े उद्योगों को भी मिला है। यह केवल मेला ही नहीं स्वदेशी मेले के रूप में मिनो इंडिया का स्वरूप देखने को मिल रहा है। यहाँ अलग-अलग प्रान्तों की लोककला और कारीगरी को एक स्थान और एक मंच पर देखने का अवसर मिलता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पहले हमारा देश सोने की चिड़िया हुआ करता था, हम दुनिया की शीर्षस्थ अर्थव्यवस्था थे और हमारे उद्योग, धंधे, मसाले, रेशम और मलमल जैसे

चमत्कारी वस्त्र दुनिया भर में मशहूर थे। कहा जाता है कि ढाका का बना मलमल अंगूठी के छल्ले से निकल जाता था। अंग्रेजों ने हमारी इसी स्वदेशी ताकत को कमजोर बना दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री के प्रोत्साहन और प्रेरणा से देश के साथ ही प्रदेश के युवा ने भी नौकरी मांगने नहीं, देने वाले बनने के गंभीर और दूरदर्शी संदेश को समझा। आज हमारे यहां 37 हजार से भी अधिक स्वदेशी स्टार्ट-अप सक्रिय हैं। हमारा युवा उद्यमशील होकर नौकरी देने वाला बन रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव 4 दिसम्बर को सिंगल क्लिक से करेंगे राशि अंतरित श्रमिक परिवारों को 225 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी संबल योजना में कुल 10 हजार 236 श्रमिक परिवार होंगे लाभान्वित

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 4 दिसम्बर को संबल योजना अंतर्गत अनुग्रह सहायता के 10 हजार 236 प्रकरणों में श्रमिकों के परिवारों को सहायता राशि 225 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक से वितरित करेंगे। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में श्रम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं हितग्राही उपस्थित रहेंगे। संबल योजना प्रदेश में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लाखों श्रमिकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। इसमें अनुग्रह सहायता योजना में दुधटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए एवं सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपए प्रदान किये जाते हैं। इसी प्रकार स्थायी अपंगता पर 2 लाख रुपए एवं आंशिक स्थायी अपंगता पर 01 लाख रुपए तथा अंत्येष्टि सहायता के रूप में 5 हजार रुपए प्रदान किये जाते हैं। संबल योजना में जहाँ एक ओर महिला श्रमिक को प्रसूति सहायता के रूप में 16 हजार रुपए दिये जाते हैं तो वहीं दूसरी ओर श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा भी उपलब्ध करवायी जाती है। प्रदेश के लाखों श्रमिक एवं प्लेटफार्म वर्कर्स को भी संबल योजना में सम्मिलित किया जाकर इन्का पंजीयन प्रारम्भ किया गया है। इन्हें भी संबल योजना में लाभ प्रदान किये जा रहे हैं। संबल योजना प्रदेश में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लाखों श्रमिकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। इसमें श्रमिकों को जन्म से लेकर मृत्यु तक आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। मध्यप्रदेश सरकार ने संबल योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।

मजार पर पढ़ने जा रहे थे हनुमान चालीसा, पुलिस ने किया नौ लोगों को गिरफ्तार

वाराणसी। देश में अभी संभल और अजमेर दरगाह को लेकर विवाद चल ही रहा था कि एक यूपी के वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज में स्थित मजार को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। मंगलवार को मजार पर हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे छात्रों को जब पुलिस ने रोका तो छात्रों और पुलिस में जमकर खींचतान हुई। स्थिति को संभालते हुए पुलिस ने 9 छात्रों को हिरासत में ले लिया है। दरअसल, यूपी कॉलेज के मजार का विवाद उस तक बढ़ा जब कुछ दिन पहले सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से 2018 में कॉलेज प्रशासन को भेजे गए एक नोटिस के तहत मजार की जमीन पर दावा किया गया था।

लश्कर का आतंकी जुनैद अहमद मारा गया

श्रीनगर। श्रीनगर में दाचीगाम के जंगलों से लगे हरवान इलाके में सुरक्षाबलों ने लश्कर के आतंकी जुनैद अहमद को मारा गिराया है। वह आतंकवादी हमलों में नागरिकों की हत्या में शामिल था। 22 दिन में यह दूसरी मुठभेड़ है, जो सोमवार रात से चल रही है। हालांकि, अभी बाकी आतंकियों की तलाश जारी है। सेना ने आतंकियों को खोजने के लिए दाचीगाम जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया है। इससे पहले हरवान जंगल में कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर पर सुरक्षाबलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया।

चंडीगढ़ में मोदी बोले- तारीख पर तारीख के दिन खत्म: आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई मजबूत होगी; भ्रष्टाचार में कार्रवाई की कानूनी अड़चन दूर होगी

चंडीगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में 3 नए कानूनों को लागू करने की समीक्षा की। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ रहे। यहाँ उन्होंने चंडीगढ़ में लागू किए गए कानूनों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उद्घोष भी देखा। पहले गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधन में कहा कि नए कानूनों के बाद हमें अंग्रेजों के जमाने के जमाने क्रिमिनल सिस्टम से छुटकारा मिल गया है। अब तारीख पर तारीख का खेल खत्म हो गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब तारीख पर तारीख के दिन लड़ें और यानी खत्म हो गए हैं। नए कानूनों से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई मजबूत होगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में आने वाली कानूनी अड़चन



दूर होगी। पीएम मोदी ने कहा कि 2020 में इन 3 नए कानूनों का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इसके बाद कई जगह से सुझाव लिए गए। इसमें हाइकोर्ट के जर्जों और लोगों बात की गई। आजादी के 7 दशकों में न्याय व्यवस्था में आई चुनौतियों पर मंथन किया गया। देश को 1947 में आजादी मिली। कई लोगों के बलिदान के

गरीब-मजदूर अब कोर्ट-कचहरी से नहीं डरेंगे

पीएम ने कहा कि गरीब व कमजोर लोग कानून के नाम से डरते थे। पहले वह लोग कोर्ट-कचहरी में कदम रखने से डरते थे, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता लोगों की इस मानसिकता को बदलने का काम करेगी। यही सच्चा सामाजिक न्याय है। जिसका भरोसा हमारे संविधान में दिलाया है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा हट पीडिट के प्रति संवेदनशीलता से परिपूर्ण है। देश के नागरिकों को इसकी बारीकियों का पता चलना भी उतना ही जरूरी है।

बाद जब आजादी की सुबह आई तो कैसे-कैसे सपने थे, लोगों में कितना उत्साह था। लोगों ने सोचा था कि अंग्रेज चले गए हैं तो अंग्रेजों के कानूनों से भी मुक्ति मिलेगी। यह कानून अंग्रेजों के शोषण करने का जरिया थे, जिनसे वह भारत में अपनी सत्ता मजबूत करना चाहते थे। आईपीसी भारतीयों को दंड देने के लिए बनाई थी पीएम ने कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ हमारे

देश में 1857 में विद्रोह शुरू हुआ था। उसके बाद 1860 में अंग्रेजों ने आईपीसी बनाई। इन कानूनों का मकसद था कि भारतीयों को दंड दिया जाए, उन्हें गुलाम किया जाए। वहीं, देश की आजादी के दशकों के बाद उसी दंड संहिता के इर्द-गिर्द घूमते रहे। हालांकि इन कानूनों में थोड़ा-बहुत बदलाव जरूर हुआ, लेकिन इनका चरित्र वही बना रहा।

“नैनो क्रांति”: गुजरात में 20 लाख से अधिक किसान कर रहे हैं नैनो फर्टिलाइजर का उपयोग



इफको श्रीलंका, नेपाल, भूटान और बांग्लाज जैसे देशों को नैनो यूरिया का निर्यात कर रहा है पर्यावरण अनुकूल नैनो यूरिया और नैनो डीएपी से बढ़ेगी किसानों की उपज और आय

गांधीनगर। किसानों की आय दोगुनी करने और खाद्यान्न के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धति अपनाने और टेक्नोलॉजी के अधिकतम उपयोग को प्रोत्साहित करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफको) के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी तकनीक के माध्यम से नैनो यूरिया (तरल) और अब नैनो यूरिया

प्लास और नैनो डीएपी (तरल) विकसित किया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार अधिक से अधिक किसानों को पारंपरिक यूरिया और डीएपी के स्थान पर नैनो यूरिया प्लास और नैनो डीएपी के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

गुजरात में हुई “नैनो क्रांति” की शुरुआत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 में गांधीनगर के निकट स्थित इफको, कलोल में बने दुनिया के पहले नैनो यूरिया (तरल) प्लांट का उद्घाटन किया था। इस प्लांट की उत्पादन क्षमता 175 किलोलिटर (1 किलोलिटर यानी 1000 लिटर) प्रतिदिन की है। इफको ने इस स्वदेशी नैनो उर्वरक का पेटेंट भी प्राप्त किया है। इतना ही नहीं, इफको अब इस नैनो यूरिया को श्रीलंका, नेपाल, भूटान और बांग्लाज जैसे देशों को निर्यात भी कर रहा है। नैनो यूरिया प्लास और नैनो डीएपी (तरल) का उपयोग फसलों में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है। अब तक संफेद दानेदार ठोस पदार्थ के रूप में उपलब्ध यूरिया का उपयोग करने पर पौधों को उसका आधे से भी कम हिस्सा मिल पाता था, बाकी जमीन और हवा में चला जाता था। जबकि नैनो फर्टिलाइजर (तरल) के कणों का आकार इतना छोटा होता है

साजिश

पप्पु यादव को धमकी उनके अपने करीबियों ने ही दिलाई

गिरफ्तार आरोपी का खुलासा, सुरक्षा दिलवाने रचा धमकी का ड्रामा



पूर्णिया। सांसद पप्पु यादव को धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार रामबाबू के हवाले से पुलिस ने चौकाने वाले खुलासे किए हैं। धमकी का पूरा ड्रामा पप्पु यादव को सुरक्षा दिलवाने के लिए उनके अपने करीबियों ने ही रचा था और इसके लिए उससे तरह-तरह के वादे भी किए गए थे। पूर्णिया

पप्पु यादव ने कहा पुलिस मानसिक रूप से दिवालिया

यहां पुलिस ने धमकी मामले को ड्रामा करार दिया वहां पूर्णिया सांसद पप्पु यादव ने पुलिस के दावे को नकारते हुए उसको सोच को ही दिवालिया घोषित कर दिया। सांसद पप्पु यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए कहा, कि माननीय (एटर्नेट नीतीश कुमार) आपकी पुलिस मानसिक रूप से दिवालिया हो गई है वह वही व्यवहार कर रही है जो दिवंगत कांग्रेस एमएलए हेमंत शाही जी को गोली लगने पर तत्कालीन सरकार और प्रशासन ने किया था। उन पर घायल होने की नोटिफिकेशन का आरोप लगाया, बाद में इलाज रत हेमंत जी की मृत्यु हो गई थी। पुनः वही हो रहा है। इसके साथ ही एक अन्य पोस्ट में सांसद पप्पु यादव ने कहा, 26 लोगों ने अब तक जान से मारने की धमकी दीया मलेशिया, पाकिस्तान, नेपाल से धमकी मिली है, उस पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं, अगर किसी ने पैसा देकर धमकी दिलाया है तो पुलिस उसके नाम का खुलासा कर गिरफ्तार करे! पुलिस किसी के इशारे पर मेरी सुरक्षा से खेल रही है, झूठ फैला हत्यारों को शह दे रही है।

लिए वीडियो बनाने और धमकाने का पप्पु यादव को वीडियो बनाकर धमकी देने के आरोपी रामबाबू से प्राप्त जानकारी का हवाला देते हुए बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति ने स्वीकार किया है कि सांसद के कुछ करीबी लोगों ने ही उसे सुरक्षा मुहैया कराने के

लिए वीडियो बनाने और धमकाने का ड्रामा करने को कहा था। इसके लिए उसे पैसा भी दिए गए थे। इसके साथ ही पार्टी में पद देने का लालच भी उन लोगों ने दिया था। पूर्णिया एएसपी की मानें तो गिरफ्तार आरोपी पूर्व में सांसद पप्पु यादव का करीबी रहा है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि

Regd. 202045

भारतीय पत्रकार समिति

पत्रकारों के हक में - पत्रकारिता के हित में

तेजी से उभरता भारत का सबसे बड़ा पत्रकारों का संगठन



पत्रकारिता से जुड़े व्यक्ति सदस्य बनने के लिए अपना बायोडेटा आईडी कार्ड सहित ईमेल करें

राष्ट्रीय स्तर पर सदस्यता अभियान शुरू

Email: indianjournalistcommittee@gmail.com

माधव विश्वविद्यालय का निःशुल्क चिकित्सा शिविर: ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में नई क्रांति

♦भारत टाइम्स♦
आबूरोड़। माधव विश्वविद्यालय के माधव होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और सशक्त बनाने के अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए देलदर गांव में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में गांववासियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। शिविर में करीब 70 मरीजों ने अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए डॉक्टरों से परामर्श लिया। इनमें अधिकतर महिलाएं शामिल थीं, जिन्होंने त्वचा संबंधी रोग, मासिक धर्म की समस्याएं, गठिया, सिरदर्द और बच्चों की सर्दी-जुकाम जैसी परेशानियों पर विशेषज्ञों से सलाह ली। शिविर में सभी को उनकी समस्याओं के अनुसार निःशुल्क होम्योपैथिक दवाइयां भी वितरित की गईं। चिकित्सा अधिकारी डॉ. भावना कुमारी ने इस



शिविर का नेतृत्व किया। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की स्वास्थ्य पहल न केवल चिकित्सा सेवाओं को सुलभ बनाती है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं को जागरूक और सशक्त भी करती है। इस शिविर में प्रशिक्षु हर्ष राजपुरोहित, मेघना, जानकी, संदीप और विशाल ने भी सक्रिय रूप से योगदान दिया। उन्होंने ग्रामीणों को परामर्श देने के साथ दवाइयों के वितरण में मदद की। इन युवा प्रतिभाओं ने चिकित्सा शिविर को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। माधव होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अधिष्ठाता और अधीक्षक डॉ. मनोज कुमार बेहरा ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य है कि ग्रामीण इलाकों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं हर व्यक्ति तक पहुंचें। यह शिविर उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

हुकमाराम भाटी को मिला राजस्थान सरकार द्वारा राज्य स्तरीय प्रथम श्रेणी पुरस्कार

♦भारत टाइम्स♦
जोधपुर। पिछले 15 वर्षों से अनाथ एवं दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए सेवा कार्य करने वाले सत्य प्रेम करुणा सेवा संस्थान, जोधपुर के संस्थापक अध्यक्ष हुकमाराम भाटी पुत्र सुखदेवराम निवासी श्री दयालु नगर, बागोरिया, भोपालगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के उपलक्ष्य में जोधपुर में निदेशालय विशेष योग्यजन एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा सोमवार को जोधपुर में प्रथम श्रेणी सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत द्वारा भाटी को उत्कृष्ट सेवा कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र व 10 हजार रुपये की नगद राशि से पुरस्कृत किया गया। पिछले 15 वर्षों से समाज के अनाथ एवं दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए



संपूर्ण निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करवा कर उनकी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं जुगो झोपड़िया में रहने वाले बच्चों के लिए विद्यालय की स्थापना कर उनको शिक्षा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सम्मानित होने पर

समाज एवं गांव में सभी जगह खुशी का माहौल है एवं सभी बधाइयां दे रहे हैं। जोधपुर से पुनः जोधपुर आने पर संजय गहलोत, डॉ. शंकर जांगिड़, योगाचार्य श्याम भाटी आदि सभी गणमान्य नागरिकों द्वारा स्वागत किया गया।

अब वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा पीएमजेवाई एवं मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजनाओं का लाभ

♦भारत टाइम्स♦
योजना से सम्बद्ध निजी और सरकारी चिकित्सा संस्थानों में मिलेगा केशलेस उपचार

राजसमंद विद्याधर वैष्णव। सभी 70 वर्ष एवं अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में जोड़ा गया है। सीएमएचओ डॉ. हेमन्त कुमार बिन्दल ने बताया कि इसी प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना अन्तर्गत सभी वरिष्ठ नागरिकों को शामिल करते हुए केशलेस उपचार की सुविधा दी गई है। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिये 70 वर्ष एवं अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पोर्टल पर आवेदन करना होगा। सफल आवेदन के बाद पात्र परिवार के सभी वरिष्ठ नागरिक मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में केशलेस उपचार का लाभ लेने के लिये पात्र होंगे। पात्र परिवार के सभी वरिष्ठ नागरिकों को सामूहिक रूप से 25 लाख रुपये तक का केशलेस उपचार का लाभ मिलेगा। परिवार के अन्य सदस्य जो 70 वर्ष से कम आयु के हैं, इस श्रेणी के लिये पात्र नहीं होंगे। वरिष्ठ नागरिकों को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में सम्बद्ध सभी निजी एवं सरकारी चिकित्सा संस्थानों में निर्धारित पैकेज के अनुसार केशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। उपचार का व्यय राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी द्वारा वहन किया जायेगा। राज्य एवं देश की अन्य स्वास्थ्य बीमा योजना के पंजीकृत पात्र परिवारों को उनकी वर्तमान योजना एवं मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना दोनों में से किसी एक योजना के बनेटाईम विकल्प का चयन करना होगा।

आमेट पुलिस द्वारा अवैध बजरी खनन माफि या पर की कार्यवाही अवैध बजरी परिवहन करते डम्पर को किया जब्त

♦भारत टाइम्स♦
राजसमंद/आमेट। विद्याधर वैष्णव। जिले में अवैध खनन की रोकथाम तथा कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत जिला पुलिस अधीक्षक राजसमंद मनीष त्रिपाठी व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजसमंद महेंद्र कुमार पारिक के आदेशानुसार वृत्ताधिकारी वृत्त कुम्भलगढ़ ज्ञानेंद्र सिंह के सुपरविजन में थानाधिकारी सुरेंद्रसिंह शकावत द्वारा थाना आमेट से एक टीम का गठन कर अवैध खनन के विरुद्ध कार्यवाही हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस थाना आमेट सुरेंद्र सिंह शकावत ने बताया कि सोमवार को हल्का गत के दौरान कस्बा आमेट किशनपुरिया, घोसुण्डी की तरफ गश्त करता हुआ जा रहा था कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि किशनपुरिया की तरफ से एक डम्पर में बजरी से भरा हुआ डम्पर



किशनपुरिया फाटक की तरफ जा रहा है जिस पर घोसुण्डी किशनपुरिया फाटक की तरफ पहुँचा तो डम्पर आमेट की तरफ जाता हुआ

नजर आया आगे जाकर रुकवाया तो डम्पर चालक मौके पर छोड़कर भाग गया। डम्पर में एक युवक बैठा था जिसको नाम व पता पुछा तो उसने

अपना नाम श्रवणसिंह पिता गंगा सिंह राजपुत निवासी किशनपुरिया थाना आमेट जिला राजसमंद होना बताया डम्पर को चेक किया तो बजरी से भरा हुआ था जिसके कागजात के बारे में पुछा तो मौके पर उपस्थित श्रवण सिंह ने कोई कागजात नहीं होना बताया व डम्पर के नम्बर चेक किये तो डम्पर के आगे आर जे 51 जीए 2277 हिन्दी में लिखे हुए पाये गये। उक्त डम्पर में भरा पदार्थ अवैध खनन होना पाया जाने से डम्पर को डिटेन कर थाना लेकर आये व अग्रिम कार्यवाही हेतु खनिज विभाग आमेट को सूचित किया। आगे भी अवैध खनन माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही जारी रहेगी। पुलिस टीम में सुरेंद्र सिंह शकावत थानाधिकारी, बंशीलाल सउनि, प्रताप सिंह सउनि, उमेश कानि, संदीप लाठर कानि, दिनेश कानि, संदीप चोहान कानि, रणवीर कानि सहित शामिल रहे।

विश्व दिव्यांग दिवस पर प्रथम अभिभावक परामर्शदात्री कार्यक्रम का हुआ आयोजन

♦भारत टाइम्स♦
मुकेश शर्मा/गोविन्दगढ़/अलवर। राज्य सरकार के दिशा निर्देश अनुसार मंगलवार को विश्व दिव्यांग दिवस पर ब्लॉक गोविन्दगढ़ का प्रथम अभिभावक परामर्श दात्री का कार्यक्रम हुआ। इसमें दिव्यांग बच्चों को कार्यक्रम में आए डॉक्टरों के द्वारा आवश्यकता अनुसार थेरेपी दी गई तथा विभिन्न योजनाओं की जानकारी इन बच्चों को प्रदान की गई। मुख्य अतिथि ब्लाक शिक्षा अधिकारी ब्लॉक गोविन्दगढ़ द्वारा बच्चों को और विशेष शिक्षा में अच्छे कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित कर प्रेरित किया गया। और कार्यक्रम में एक नई पहल भी की गई जिसमें दिव्यांगों के प्रति लोगों की धारणा और सोच को बदलने के लिए एक शपथ दिव्यांगों के नाम जागरूकता अभियान चलाया। और पूरे



अलवर जिले के समस्त विद्यालयों में ये शपथ कार्यक्रम कराया गया। कार्यक्रम में ब्लाक शिक्षा अधिकारी विश्वजीत सिंह, कार्यवाहक प्रधानाचार्य विश्वदयाल मीणा, राउमावि गोविन्दगढ़, फड

भुवनेश शर्मा, मुकुट बिहारी, जगन पीटीआई, मुकेश शर्मा, योगेंद्र त्रिवेदी, पवन खंडेलवाल, हरी ओम शर्मा सहित समस्त विशेष शिक्षक एवं सभी स्टाफ गण उपस्थित रहे।

रेलवे कर्मचारी यूनियनों की मान्यता के लिए चुनाव आज से

♦भारत टाइम्स♦
प्रशासनिक तैयारियां पूरी
जोधपुर में 8 हजार 911 रेलकर्मचारी वोटर्स 21 बूथों पर डालेंगे वोट
4 से 6 दिसंबर तक होगा मतदान

♦भारत टाइम्स♦
जोधपुर। 3 दिसंबर रेलवे में कर्मचारी यूनियनों को मान्यता प्रदान करने हेतु गुप्त मतदान बुधवार से प्रारंभ होगा। शांतिपूर्ण मतदान के लिए रेल प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनावों के लिए जोधपुर मंडल के पीठासीन अधिकारी अपर मंडल रेल प्रबंधक राकेश कुमार के अनुसार कर्मचारी यूनियनों को मान्यता के लिए मतदान हेतु मंडल के विभिन्न स्टेशनों व कार्यालयों में बनाए गए कुल 21

मतदान केंद्रों पर 8 हजार 911 रेलकर्मचारी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उन्होंने बताया कि चुनाव हेतु मतदान 4, 5 व 6 दिसंबर तक किया जाएगा जबकि 6 दिसंबर को विभिन्न स्थानों पर कार्यरत रिनिंग स्टाफ के लिए मेड़ता रोड व जोधपुर स्टेशन पर मतदान की व्यवस्था की गई है। उत्तर पश्चिम रेलवे पर होने वाले कर्मचारी यूनियनों की मान्यता के लिए होने जा रहे चुनावों के तहत जोधपुर, अजमेर, बीकानेर व जोधपुर कारखाना में 1-1 पीठासीन अधिकारी नामित किए गए हैं जिनकी देखरेख में समूची मतदान प्रक्रिया पूरी होगी। अधिकतम पांच वर्षों का होगा कार्यकाल इस चुनाव के द्वारा अधिकतम दो यूनियनों को मान्यता प्रदान की जानी है व यूनियनों का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। चुनावों में विजयी होने वाली यूनियन रेलकर्मचारियों के मुद्दों पर रेल प्रशासन के साथ चर्चा के अधिकृत होंगी।

माधव विश्वविद्यालय में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चैलेंजेस एंड रिफॉर्म पुस्तक का भव्य विमोचन

♦भारत टाइम्स♦
आबूरोड़। माधव विश्वविद्यालय के विधि संकाय की सहायक प्राध्यापिका डॉ. मीनू दायमा शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चैलेंजेस एंड रिफॉर्म का विमोचन समारोह आज विश्वविद्यालय प्रांगण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के चेयरपर्सन डॉ. राजकुमार ने की, जबकि रजिस्ट्रार डॉ. भावेश कुमार, रिसर्च डीन डॉ. पवन कुमार, और विधि संकाय अधिष्ठाता डॉ. दिलीप कुमार उपाध्याय ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। समारोह में पुस्तक का विमोचन करते हुए चेयरपर्सन डॉ. राणा ने डॉ. मीनू दायमा शर्मा को इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए बधाई दी और कहा कि यह पुस्तक वर्तमान आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने कहा कि पुस्तक न केवल न्याय प्रणाली के मौजूदा मुद्दों को उजागर करती है, बल्कि उनके समाधान के लिए टोस सुझाव भी प्रदान करती है। डॉ. मीनू ने अपने संबोधन में बताया कि इस पुस्तक का उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली के सामने खड़ी चुनौतियों का विश्लेषण करना और उन पर आधारित प्रभावी सुधारों की रूपरेखा तैयार करना है। कार्यक्रम में विधि संकाय के छात्रों, शोधकर्ताओं और अन्य



शिक्षाविदों ने भी भाग लिया। इस पुस्तक में आपराधिक न्याय प्रणाली के विभिन्न पहलुओं जैसे पुलिस सुधार, न्यायिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, जेल सुधार और पीड़ित अधिकारों पर गहराई से चर्चा की गई है। यह पुस्तक न केवल विधि के छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी है, बल्कि नीति-निर्माताओं के लिए भी एक मार्गदर्शक सिद्ध हो सकती है। कार्यक्रम के अंत में चेयरमैन डॉ. राणा ने इस पुस्तक को विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में शामिल करने की घोषणा की और इसे छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया।

श्रीमान राहुल देव सिंह जी को मेवाड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से स्वागत अभिनंदन किया

आवश्यकता

भारत टाइम्स न्यूज को रिपोर्ट्स और अनुभवी मार्केटिंग एजीक्यूटिव की आवश्यकता है। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो अपना बॉयोडाटा हमें ईमेल करें।

Bharattimesnews01@gmail.com

Whatsapp

9509745147
9799911545

परंपराओं को बचाएं रखना जरूरी है - दीवान

शिक्षा से ही समाज तरक्की के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है: मुलेवा

♦भारत टाइम्स♦
ब्यावर। तहसील रायपुर ग्राम पंचायत मोहरा कला गांव करमावास मालियान बेरा नवोड़ा पर कालूराम सुपुत्र लादूराम काग के सुपुत्री की शादी समारोह में श्री आई माताजी का धर्म रथ भैल व सीरवी समाज के धर्मगुरु दीवान माधवसिंह जी सुपुत्री की शादी में आशीर्वाद देने के लिए पधारें उनके उपलब्ध में गांव मोहरा कला के कोटवाल जमादारी समस्त पंचो री सहमती से गाजा बाजा तिलक करके पलक पावड़ा से भव्य स्वागत किया। महिलाओं ने श्री आई माताजी के मंगल गीत गाते हुए व गैरियों ने नृत्य करते हुए श्री आई माताजी धर्म रथ का भव्य स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं ने आईमाता के बेल रथ का दर्शन किए। धर्म सभा को संबोधित करते हुए धर्मगुरु दीवान साहब ने कहा कि आईमाता के प्रति अटूट आस्था का ही कारण है। दीवान ने कहा कि धर्म के कार्यों



में अपने बच्चों को भी जोड़ना चाहिए। जिसमें संस्कार पनपें क्योंकि आने वाली पीढ़ी ही समाज की कर्णधार है। आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए प्रिंसिपल जमदीश मुलेवा ने कहा कि विकट परिस्थितियों में समाज के लोगों ने राजस्थान से बाहर जाकर अपनी

विशेष बनाई और व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़े। यह खुशी की बात है कि आज का समय शिक्षा का है। मुलेवा ने कहा कि समाज व्यापार में तो आगे बढ़ा किंतु शिक्षा में पिछड़ रहा है। शिक्षा समाज की आर्थिक व सामाजिक, दोनों के स्वरूप को बदल सकती है। इसलिए हमें समाज की

भावी पीढ़ी को बेहतर और उच्च शिक्षा देनी चाहिए। समाज के उत्थान के लिए शिक्षा के महत्व को समझना अनिवार्य है। आई माता रथ के साथ आए जित बाबा मडली के पुना महाराज, राजेंद्र पवार, खंता महाराज, रतन लाल राठौड़, शंकर हायब्रड का स्वागत किया गया।

मेवाड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से स्वागत अभिनंदन किया



♦भारत टाइम्स♦
चित्तौड़गढ़ (अमित कुमार चेचानी)। मेवाड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष सीए (डॉ) अर्जुन मुद्दड़ा ने बताया कि रीको चित्तौड़गढ़ के नए पद स्थापित क्षेत्रीय प्रबंधक श्रीमान संदीप जी पवार एवं जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र के महाप्रबंधक

श्रीमान राहुल देव सिंह जी को मेवाड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से स्वागत अभिनंदन किया सचिव राकेश मंत्री ने बताया कि राजस्थान राईजिंग 2024 के दिनांक 9.10.11 दिसंबर 2024 को जोधपुर में होने वाले आयोजन हेतु एवं अन्य समस्याओं पर चर्चा की।

प्रदेश की जनता वर्तमान सरकार की नीतियों से दुखी: कुमारी शैलजा

गांव हसनगढ़ में कुमारी शैलजा अखिल भारतीय धानक उत्थान महासंघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष शमशेर हसनगढ़ की सुपुत्री के विवाह समारोह में पहुंची

इस सरकार ने प्रदेश की जनता को कागजों और ऑनलाइन में उलझा कर रख दिया है धरातल पर कोई भी काम होता नजर नहीं आ रहा है

हरियाणा/ हिसार (गरिमा)। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव व लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा गांव हसनगढ़ में अखिल भारतीय धानक उत्थान महासंघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष व कांग्रेस कार्यकर्ता शमशेर हसनगढ़ की सुपुत्री शिवानी के विवाह समारोह में पहुंची।



में आशीर्वाद देने पहुंची सांसद कुमारी शैलजा का इस विवाह समारोह में पहुंचने पर फूल मालाओं से स्वागत किया गया कुमारी शैलजा ने ग्रामीण महिलाओं से मुलाकात की और

उनकी कुशलक्षेम पूछी। ग्रामीण महिलाएं कुमारी शैलजा से मिलने के बाद काफी उत्साहित नजर आईं। इस दौरान ग्रामीणों ने सांसद कुमारी शैलजा के समक्ष अपनी समस्याएं रखीं और वर्तमान सरकार की नीतियों का रोना रोया। सांसद कुमारी शैलजा ने ग्रामीणों को कांग्रेस की नीतियों से अवगत करवाया और पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार धर्मंड में चकनाचूर हो गई है। सरकार का अभी तक जीत का नशा नहीं उतरा है। प्रदेश की जनता वर्तमान सरकार की नीतियों से दुखी है। इस सरकार ने प्रदेश की जनता को कागजों और ऑनलाइन में उलझा कर रख दिया है। धरातल पर कोई भी काम होता नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस में गुटबाजी बरे कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में किसी भी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस के सभी नेता अपनी-अपनी तरह से कांग्रेस की नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वर्तमान सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रही है। सांसद कुमारी शैलजा ने अखिल भारतीय धानक उत्थान महासंघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष शमशेर हसनगढ़ की सुपुत्री शिवानी को अपना आशीर्वाद दिया और लंबी उम्र की कामना की। सांसद कुमारी शैलजा इस विवाह समारोह में लगभग डेढ़ घंटा रुकीं और दोपहर 3 बजे आईं और शाम को

लगभग साढ़े 4 बजे वहां से अंबाला के लिए रवाना हुईं। इस अवसर पर एचपीएससी पूर्व सदस्य जगनाथ, पूर्व प्रत्याशी बाला देवी खेड़, पूर्व चेयरमैन अजीत लितानी, पूर्व सरपंच राजेश भुटानी प्रभुवाला, कृषक समाज हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष व अंबेडकर एजुकेशन सोसाइटी हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुखबीर नागर, डॉ. अनंत राम बरवाला, कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश गर्ग, अजय खेड़ी बर्की, समाजसेवी हरकिशन, करण सिंह नैन, चंद्र हर्ष, नरेश पातड, एडवोकेट नर सिंह सेलवाल, पूर्व जिला पार्षद सज्जन गौबीपुर, फूल कुमार साहू, बिरेन्द्र सेलवाल, जगबीर मलिक, कबीर छात्रावास पूर्व प्रधान रतन कुमार बड़गुज्जर, उमेश नैन, सुंदर नागर, मदन पपोसा, जितेंद्र पूनिया, संतोष जांगड़ा, धर्मा प्रजापत पहेवा, पूर्व सरपंच राममेहर बोबुआ, जिला पार्षद कमल कायत, के.के.आर्य, विकास रतन महेंद्र सेतिया, हरपाल सेलवाल, कबीर छात्रावास प्रधान जोगी राम खुडिया, पूर्व जिला पार्षद बलजीत सुरेवाला, कुसुम सेलवाल, डॉ. स्वदेश कबीर, एडवोकेट डॉक्टर रामकुमार सोलंकी व हरियाणा ग्रामीण बैंक पूर्व डायरेक्टर कुलजीत घनघस समेत गांव हसनगढ़ व आसपास क्षेत्र के अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

गांव में सरपंचों के प्रचार की हलचल बड़ी



चोहटन/ डूंगर राठी। हालांकि अभी तक सरपंचों के चुनाव की घोषणा नहीं हुई है लेकिन गांव में अपनी ग्राम पंचायत का मुखिया बनने के लिए हलचल तेज हो गई है। चोहटन पंचायत समिति पंच तथा सरपंचों के चुनाव चोथे तथा अंतिम चरण में अक्टूबर माह में हुए थे। लेकिन राज्य सरकार की वन स्टेट वन चुनाव के तहत जल्दी होने की संभावना जताई जा रही है। उसी के तहत पंचायत समिति के गोलीयार ग्राम पंचायत के सरपंच चुनाव के लिए युवा उम्मीदवार वीराराम रबारी ने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। गांव के बने सभी बाड़ों के लिए विगतवार समस्याओं का आकलन तैयार कर



दो दिन पहले जयपुर जाकर सरकार के विभिन्न मंत्रिमंडल के सदस्यों से मिलकर इन समस्याओं के निराकरण के लिए बात करके आए हैं। विशेष कर शिक्षा के क्षेत्र में गांव में सीनियर सेकेंडरी का स्कूल जरूर है लेकिन अध्यापकों की कमी नितांत बनी हुई है। अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए शिक्षा मंत्री के दफतर सहित विभिन्न विभागों के मंत्रियों तथा अधिकारियों से मिलकर गांव की समस्याओं को अवगत करवाया। वापस आकर अपने क्षेत्र में इन समस्याओं के बारे में लोगों से चर्चा कर स्थानीय विधायक से भी मिलकर समस्याओं से अवगत करवाएंगे।

खेड़ापा में 9 दिवसीय आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर 5 दिस से...

बगड़ी नगर (महेंद्र सिंह)। खेड़ापा श्री रामधाम ट्रस्ट और आयुर्वेद विभाग, राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वावधान में 5 से 14 दिसंबर तक श्री रामधाम खेड़ापा, तहसील बावड़ी में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक विशाल निःशुल्क अंतरंग आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। डॉ. अशोक कुमार मित्तल उप निदेशक आयुर्वेद विभाग जोधपुर ने बताया कि यह शिविर आमजन को आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित हो रहा है। शिविर में गंभीर बीमारियों (अर्श), भगंदर (फिस्टुला), परिकर्तिका (फिशर) के साथ अन्य बीमारियां जैसे पुराना दमा, खांसी, जोड़ों का दर्द, कब्ज, एसिडिटी, भूख न लगना, और पेट के अन्य रोगों का भी निःशुल्क उपचार किया जाएगा। इस दौरान रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श और औषधियों का वितरण किया जाएगा। चर्चित रोगियों के लिए 5 और 6 दिसंबर को



जेटाराम माचरा



डॉ. एडीपी सिंह राजपुरोहित



भोमाराम चौधरी

ऑपरेशन की विशेष सुविधा रहेगी। शिविर में ऑपरेशन वाले रोगियों के लिए भोजन और आवास की व्यवस्था निःशुल्क रहेगी। शिविर में भाग लेने के लिए पहचान-पत्र (आधार कार्ड) व भोजन के बर्तन लाना अनिवार्य होगा। आयोजकों की ओर से बयान- डॉ. ए. डी. पी. सिंह (शिविर प्रभारी): शिविर में गंभीर बीमारियों का

36 वर्ष 10 माह की सेवाओं के बाद सेवानिवृत्त हुए जनसंपर्क विभाग के एसडीओ वीरेंद्र सिंह

हरियाणा/हिसार (गरिमा)। जिला कार्यालय एवं जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय में कार्यरत गीत एवं नाटक अधिकारी (एसडीओ) वीरेंद्र सिंह 36 वर्ष 10 माह की सेवा पूरी कर सेवानिवृत्त हो गए हैं। कार्यालय में अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा भविष्य के लिए उनको शुभकामनाएं दी गईं। जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी रोहित कुमार, अधीक्षक बिजेंद्र सिंह, सहायक सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सुनील कुमार एवं नरेंद्र सोनी ने उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी रोहित कुमार ने एसडीओ वीरेंद्र सिंह को उनकी सेवानिवृत्ति पर अपनी शुभकामनाएं देते



हुए बताया कि वीरेंद्र सिंह तबला वादक के पद पर 5 फरवरी 1988 को भर्ती हुए थे। उन्होंने हिसार के अलावा अंबाला, फरीदाबाद, करनाल तथा चंडीगढ़ में लगभग 37 साल अपना कार्यकाल पूर्ण

निष्ठा व दायित्व के साथ निभाया। उन्होंने बताया कि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों एवं जिला प्रशासन द्वारा उन्हें जो भी जिम्मेवारी सौंपी गई, उसको उन्होंने बेहतर ढंग से सदैव पूरी निष्ठा एवं लगन के साथ पूरा किया। इसके अलावा सहायक सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सुनील कुमार, ड्रामा इन्स्पेक्टर अनिल, लिपिक सुरेश पुनिया सहित अन्य विभागीय कर्मचारियों ने भी अपने-अपने

विचार रखे। ड्रामा इन्स्पेक्टर अनिल एवं कलाकार आजाद सिंह खांडा सहित अन्य विभागीय कलाकारों ने विदाई गीत गाकर उनके लगभग साढ़े 37 साल के कार्यों की प्रशंसा की। भजन पार्टी द्वारा विदाई समारोह गीत प्रस्तुत कर भावविभोर कर दिया गया। विदाई समारोह में एसडीओ वीरेंद्र सिंह की पत्नी बबली देवी, उनके दोनों पुत्र एवं पुत्रवधु सहित उनके पारिवारिक एवं लेखाकार सत्यवीर सिंह, आईसीए प्रदीप कुमार व नरेंद्र सिंह, लिपिक अशोक कुमार, रोहाताश, भजन पार्टी से मनोज कुमार, सूरजभान, सुंदर सिंह, राजेंद्र, फुल कुमार, रणवीर सिंह, आशीष कुमार, दीपक, प्रशिक्षु ललित, चिराग आदि मौजूद रहे।

रायपुर से स्काउट मास्टर राजा राम का स्काउट कोर्स हिमालय वुड बैज (HWB) में हुआ चयन

रायपुर मारवाड़। स्थानीय विद्यालय श्री गोविंद रां बां उं मां विं रायपुर (अं मां) से स्काउट मास्टर राजा राम का स्काउट के क्षेत्र में प्रतिष्ठित और उच्च दक्षतायुक्त कोर्स हिमालय वुड बैज में चयन हुआ है। प्राचार्य महोदय श्री आशीष कुलश्रेष्ठ जी ने जानकारी प्रदान की है कि इस HWB कोर्स के स्काउटिंग क्षेत्र में बहुत ही अधिक मायने है। स्काउट यूनिट लीडर एडवॉक कोर्स करने के 1 वर्ष के बाद प्रशिक्षण स्टडी स्वरूप कार्य करके राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड मुख्यालय



जयपुर जमा करवाना होता है तत्काल जांच में उत्तीर्ण होने पर HWB कोर्स में चयन हो पाता है स्काउट बालचरों को राष्ट्रपति अवॉर्ड प्रमाणपत्र दिलवाने हेतु स्काउट मास्टर की योग्यता में HWB कोर्स होना बहुत जरूरी है युप लीडर आशीष कुलश्रेष्ठ जी ने बताया

नेटबाल खेल में चोहटन आगोर की छात्रा सीमा का राष्ट्रीय स्तर पर चयन

चोहटन/डूंगर राठी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चोहटन आगोर की कक्षा 12 की छात्रा सीमा पुत्री मांगीलाल निवासी चोहटन आगोर का 68वें नेटबॉल राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। इनका 2 दिसंबर से 3 दिसंबर तक पूर्व प्रशिक्षण शिविर पीएम श्री



उच्च माध्यमिक विद्यालय सीतसर चूरू में हुआ था। जिसमें 24

बच्चियों ने भाग लिया जिसमें से फाइनल 12 लड़कियों का चयन हुआ। अब यह 9 दिसंबर तक सीतसर में प्रशिक्षण लेगी तथा दिनांक 11 दिसंबर से 17 दिसंबर तक नेशनल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए लुधियाना जाएगी। चोहटन आगोर की बेटी 17 वर्षीय छात्रा वर्ग नेटबॉल खेल में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने

पर सीमा का नेशनल चयन होने पर संस्था प्रधान श्रीमती संगीता जी जोशी ने बेटी के उज्वल भविष्य की शुभ कामनाएं दीं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता जगदीश ढाका ने भी को बधाई देते हुए आगे बढ़ाने की प्रेरणा की बात कही। तथा क्षेत्र में प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करने की बात कही।

चोहटन अधिवक्ता संघ के चुनाव हेतु निर्विरोध सर्वसम्मति बनी

चोहटन/डूंगर राठी। अधिवक्ता संघ चोहटन के वर्ष 2024-25 नवीन कार्यकारिणी हेतु आम बैठक का आयोजन हुआ जिसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष हेतु शाकर खान समेजा सचिव हेतु नरेश धारीवाल, उपाध्यक्ष हेतु



मोहनलाल खिलेरी, कोषाध्यक्ष हेतु उमेश सिंह सोडा, सर्वसम्मति से मनोनीत किया बैठक में पूर्व अध्यक्ष मुकेशसिंह राठोड़, उदयभान सिंह राठोड़, जगदीश चौधरी, पूर्व सचिव बाबूलाल विश्वासी, जबरसिंह राठोड़, मोतीराम मेणसा,

पवन धारीवाल प्रवीण चौधरी, अनिल गोदारा, वीरमाराम चौधरी, नरपतिसिंह, विक्रम सिंह, फताराम गोदारा, खेतसिंह घोनिया ठाकराराम नानाराम ताराराम, आदि समस्त अधिवक्तागण उपस्थित थे? बैठक में मुख्य

निर्वाचन अधिकारी रामजीवन विश्वासी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस बार भी बार की परम्परा अनुसार सर्वसम्मति से बार के पदाधिकारियों का गठन किया गया तथा दिनांक 13.12.2024 को पदभार ग्रहण कराया जाएगा।

माताओं बहनों द्वारा भजन-कीर्तन कार्यक्रम सपन्न

हैदराबाद। सीरवी समाज ट्रस्ट करमनघाट अलमामसुदा हैदराबाद वडेर प्रांगण में दिनांक 3/12/2024 मंगलवार को माताओं बहनों के भजन एवं भोजन प्रसाद के लाभार्थी परिवार विमला देवी धर्म पत्नी राकेश सुपुत्र प्यारी बाई धर्म पत्नी मोनाराम सोलंकी मरुधर में गांव कोलपुरा वेरा जोत्वा फर्म महालक्ष्मी मार्केटिंग मिरपेट हैदराबाद वालों द्वारा सुबह 11:15 बजे से गाजे बाजे के साथ नाचते हुए श्री आई माताजी को भोग लगाकर माताजी की आरती बोली गई और बोली के लाभार्थी परिवार द्वारा बोली की राशि समाज को सुपुर्द की और बोली के लाभार्थी परिवार का समाज द्वारा माला एवं दुपट्टा से स्वागत किया गया। माताओं बहनों द्वारा भजनों का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ उसके बाद सभी समाज बन्धुओं के लिए भोजन प्रसाद का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ लाभार्थी परिवार के सदस्य मोनाराम, राकेश, बाबूलाल, भुराराम, विकेश, रमेश एवं समस्त सोलंकी सम्पूर्ण परिवार द्वारा कार्यक्रम



में उपस्थित समाज के उपाध्यक्ष भाणाराम उपाध्यक्ष चैनाराम सिन्दड़ा, सचिव पुखराज कोषाध्यक्ष दैलतराम पंवार, सह कोषाध्यक्ष मंगलाराम परिहारिया सह खेलमंत्री मोतीलाल, पूर्व अध्यक्ष हंसाराम आगलेचा, सचिव हिरालाल सैणचा, चम्पालाल काग, दिलीप आगलेचा एवं समाज के कार्यकर्ता मेम्बर उपस्थित हिरालाल सैणचा की ओर से सभी समाज बन्धुओं एवं माताओं को बीज की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी गईं।

कुमावत समाज मागड़ी रोड तावरीकेरे का कार्यकर्णी गठन

बेंगलूरु। कुमावत समाज मागड़ी रोड तावरीकेरे की समाज का सोमवार को हुए बैठक में नई समाज की स्थापना और कार्यकर्णी का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष चैनाराम माननीया, उपाध्यक्ष हिरालाल माननीया, सचिव कैलाश मोटावत, सह सचिव चेतन लारना, कोषाध्यक्ष रतनलाल इटाडा, सह कोषाध्यक्ष बुद्धाराम माननीया, प्रचार मंत्री कालूराम माननीया, माधुराम दुबलदीया, मानकचंद माननीया, सलाकार मंत्री सोहनलाल अडानिया, रामनारायण अय्यक्ष ओम्प्रकाश गुगवान, कुमावत समाज कुंभलगढ़ अध्यक्ष नैमाराम बाकरेचा, कुमावत समाज पिनिया हपुराम दुबलदीया, कुमावत समाज गरवाजी लीलाराम आदि सभी समाज के पदाधिकारी उपस्थित थे।

यह कार्यकर्णी संत पुखराज महाराज के सानिध्य में एवं सर्व कुमावत के अध्यक्ष की मौजूदगी में नई समाज का गठन किया गया। कार्यकारिणी गठित करते वक्त कुमावत समाज सिटी कोटनेपेट बंगलूरु मानिक चंद सिंदड़ा, कुमावत समाज रामगुड्डुहल्ली अध्यक्ष नरेंद्र गोवल, कुमावत समाज मयलसन्दरा अध्यक्ष ओम्प्रकाश गुगवान, कुमावत समाज कुंभलगढ़ अध्यक्ष नैमाराम बाकरेचा, कुमावत समाज पिनिया हपुराम दुबलदीया, कुमावत समाज गरवाजी लीलाराम आदि सभी समाज के पदाधिकारी उपस्थित थे।



सेहत के लिहाज से काफी फायदेमंद है नारियल पानी

नारियल पानी अधिकतर लोगों को पसंद आता है। लेकिन ये सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि सेहत के लिहाज से भी काफी फायदेमंद है। दरअसल, इसमें शरीर के लिए फायदेमंद कई तरह के विटामिन्स, मिनेरल्स और इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं। जो आपको कई सेहत लाभ देते हैं। तो आइए जानते हैं नारियल पानी से क्या-क्या फायदे मिलते हैं।

- नारियल पानी का सेवन लिवर के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। नारियल पानी में एंटी-ऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। जो लिवर में कई तरह के विषाक्त पदार्थों की गतिविधि को कम करते हैं। इसका सेवन करना लिवर के लिए काफी लाभकारी होता है।
- पेट के लिए नारियल पानी बेहद फायदेमंद है। इसके सेवन से पेट दर्द, एसिडिटी, अल्सर में थोड़ा-थोड़ा नारियल पानी पीने से आराम मिलता है।
- ऊर्जावान रहने के लिए नारियल पानी काफी अच्छा होता है। इसके सेवन से कमजोरी, थकान, चक्कर आने जैसी समस्याओं में इसको पीने से तत्काल लाभ प्राप्त होता है।
- नारियल पानी हृदय रोग का जोखिम कम करने का काम करता है। इसके सेवन से खराब कोलेस्ट्रॉल कम होता है।
- वजन कम करना चाहते हैं, तो नारियल पानी आपकी बहुत मदद करेगा। यह कैलोरी में कम और पचाने में आसान होता है। इसमें कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं, जो वजन और मोटापा कम करने में मददगार हैं।
- त्वचा में ग्लो और स्किन बिल्कुल क्लिन रखना चाहते हैं तो नारियल पानी आपको नियमित रूप से पीना चाहिए। यदि चेहरे पर मुँहासे और दाग धब्बों की समस्या बढ़ गई है, तो नारियल पानी का सेवन आपकी सारी समस्या को दूर करेगा।



बेल का जूस पीने से सुराही जैसा ठंडा रहेगा पेट

गर्मी में चिलचिलाती धूप से बचना बहुत जरूरी है। यह शरीर में पानी की कमी, कब्ज, पेट में जलन, सीने में जलन जैसी दिक्कतें कर सकती है। इन समस्याओं को दूर रखने के लिए गर्मी में बेल का जूस पीना चाहिए। यह समर ड्रिंक बेहद हेल्दी होती है। बेल परफुट को बिल्ब भी कहा जाता है, जो मूल रूप से भारत में पैदा होता है। यह फल पेट की गर्मी दूर करने का रामबाण इलाज है। आप इसका शरबत पीकर पेट को ठंडक दे सकते हैं। आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉ. अबरार मुल्तानी ने बेल शरबत के फायदों के बारे में बताया है। बेल फल काफी पौष्टिक होता है। इसमें प्रोटीन, पानी, फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन सी की अच्छी मात्रा मिल जाती है। इसका

गूदा पेट और पाचन के लिए बेहतरीन माना जाता है।

गर्मी की बेस्ट ड्रिंक

डॉ. बेल जूस के बनिफिट बताते हुए इसे गर्मी के लिए बेस्ट ड्रिंक कहते हैं। इसके रस में ठंडा, ताजगी, पोषण, लैक्सेटिव आदि गुण होते हैं। जो इसे घूप के मौसम के लिए टॉनिक बनाते हैं।

खुल जाएंगी आंते

पाचन खराब होने पर आंतों का संकुचन कम हो जाता है, जो कि कब्ज बनाता है। गर्मी में डिहाइड्रेशन इस समस्या को गंभीर बना सकता है। मगर बिल्ब रस पानी की पूर्ति करके आंतों को रिलैक्स करता है और

गर्मी में बेल का रस जरूर पीना चाहिए। ये समर ड्रिंक शरीर को चिलचिलाती धूप से बचाने और हाइड्रेट करने का काम करती है। आइए इस फल का शरबत पीने के फायदे जानते हैं।

संकुचन सामान्य करने में मदद करता है।

हड्डियों की मजबूती बढ़ाता है

पेट के अलावा बेल फल का जूस हड्डियों के लिए फायदेमंद है। इसमें कैल्शियम का लेवल शारीरिक दांचों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। यह ड्रिंक तुरंत एनर्जी देने के लिए भी जानी जाती है।

बढ़ जाएगा खून

बेल के जूस में विटामिन बी2 होता है, जो शारीरिक विकास में मदद करता है। ये पौष्टिक गुण रेड ब्लड सेल्स के उत्पादन में मददगार होता है। जिससे खून की कमी दूर होती है।

गर्मी में रामबाण है बेल का शरबत

गर्मी के दुष्प्रभाव और सेहत की हर समस्या के लिए बेल का प्रयोग रामबाण है। यह न केवल शरीर में ठंडक पैदा करेगा बल्कि आपको सेहत से जुड़े ऐसे लाभ देगा, जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। गर्मियों में रामबाण है बेल और उसका शरबत। जाने 7 फायदे -

- गर्मी के दिनों में लू लगने का डर सबसे ज्यादा होता है। बेल का शरबत बनाकर पीने से लू का खतरा नहीं होता और लू लग जाने पर यह दवा के रूप में कार्य करता है। तपते शरीर की गर्मी दूर करने में यह बेहद लाभकारी है।
- शरीर में गर्मी अधिक बढ़ जाने पर आंव- दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए प्रतिदिन आधे कच्चे-पक्के बेलफल का सेवन करें या फिर बेल के शरबत का सेवन करें। यह डायरिया रोग में काफी

लाभप्रद है।


- कई मर्तबा गर्मियों में आंखें लाल-लाल होने के साथ ही जलने लगती हैं। ऐसी स्थिति में बेल के पत्तों का रस एक-एक बूंद आंख में डालने से तुरंत लाभ होता है और इसका कोई नुकसान नहीं होता। इसे बात का ध्यान रखें कि रस में कचरा न हो। आंख के दर्द में बेल के पत्तों की लुगदी आंख पर बांधने से काफी आराम मिलता है।
- पाचन संबंधी समस्याओं में पके हुए बेलफल का सेवन लाभदायक होता है। इसका शरबत पीने से पेट साफ रहता है। यह फल पाचक होने के साथ-साथ बलवर्द्धक है। इसके सेवन से वात-कफ संबंधी समस्याएं भी समाप्त हो जाती हैं। गर्मियों

में गर्भवती स्त्रियों का जो मिचलाने लगे तो बेल और सौंठ का काढ़ा दो चम्मच पिलाने पर लाभ होता है।

- बेल का मुख्वा शरीर की शक्ति बढ़ाता है और कमजोरी दूर करता है। यह पेट संबंधी समस्याओं में तो फायदेमंद है ही, बेल के गूदे को खांड के साथ खाने से आंत संबंधी रोग में राहत मिलती है।
- बच्चों के पेट में कीड़े होने पर तो इसके पत्तों का अर्क पिलाना कारगर उपाय है। छोटे बच्चों को प्रतिदिन एक चम्मच पका बेल खिलाएं

से शरीर की हड्डियां मजबूत होती हैं।

- बेल के पके फल को शहद व मिश्री के साथ चाटने से शरीर के खून का रंग साफ होता है और खून में भी वृद्धि होती है। वहीं इसके गूदे में काली मिर्च, सेंधा नमक मिलाकर खाने से आवाज भी सुरिली होती है।



दालें प्रोटीन से भरपूर होती हैं। वैसे तो हर दाल पोषक तत्वों से भरपूर होती है लेकिन फिर भी अगर आपको प्रोटीन की मात्रा से के साथ कुछ परेशानियों को जड़ से खत्म करना है, तो आप अपनी डाइट में मूंग दाल जरूर जोड़ें। किसी भी रूप में मूंग दाल के सेवन के कई फायदे हैं।

दाल के पोषक तत्व

- दालों में सबसे पौष्टिक दाल, मूंग की होती है, इसमें विटामिन ए, बी, सी और ई की भरपूर मात्रा होती है। साथ ही पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम की मात्रा भी मूंग में बहुत होती है। इसके सेवन से शरीर में कैलोरी भी बहुत नहीं बढ़ती है। अगर अंकुरित मूंग दाल खाएं तो शरीर में कुल 30 कैलोरी और 1 ग्राम फेट ही पहुंचता है।
- अंकुरित मूंग दाल में मैग्नीशियम,

किसी भी रूप में फायदेमंद है मूंग दाल का सेवन

- कॉपर, फोलेट, राइबोफ्लेविन, विटामिन, विटामिन सी, फाइबर, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन बी -6, नियासिन, थायमिन और प्रोटीन होता है।
- मूंग की दाल के स्प्राउट में ग्लूकोज लेवल बहुत कम होता है इस वजह से मधुमेह रोगी इसे खा सकते हैं।
- मूंग की दाल के स्प्राउट में ओलियोसाच्याराइडस होता है जो पॉलीफिनॉल्स से आता है। ये दोनों की घटक, गंभीर रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रबल करते हैं। कैसर के रोगी भी इसका सेवन आराम से कर सकते हैं।
- मूंग की दाल में ऐसे गुण होते हैं, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा

देते हैं और उसे बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं। इसमें एंटी-माइक्रोबियल और एंटी-इंफ्लामेट्री गुण होते हैं, जो शरीर की इम्युनिटी बढ़ाते हैं।



- मूंग की दाल के स्प्राउट में शरीर के टॉक्सिक को निकालने के गुण होते हैं। इसके सेवन से शरीर में विषाक्त तत्वों में कमी आती है।

ऐसे बनाएं हेल्दी मूंग दाल का चीला

रात को मूंग दाल को एक पैन में पानी डालकर रख दें। इसके बाद सुबह इसे छान कर ग्राइंडर में पीस लें। इसके बाद इसमें नमक डालकर अच्छी तरह से मिला लें। अब तवा को गर्म करें। गर्म हो जाने में थोड़ा सा तेल डालकर मूंग दाल के पेस्ट को डालकर अच्छी तरह से फैला लें। इसके बाद इसमें सभी सड़ियां और पनीर डाल दें। इसके बाद इसमें थोड़ा सा घी डालकर दूसरी तरफ भी सेंक लें। इसके बाद इसे प्लेट में निकाल लें। आपका मूंग दाल का चीला बनकर तैयार है। इसे हरी या लाल चटनी के साथ गर्मागर्म सर्व करें।



मेडिटेशन करते समय आती है नींद? ऐसे पाएं छुटकारा

सेहत के लिए मेडिटेशन के फायदे हम सभी अच्छे से जानते हैं। ऐसे में कई लोग ऐसे हैं जो सालों से इसे कर रहे हैं वहीं कुछ ऐसे हैं जो अपने इस साल के वादे को पूरा करने के लिए हाल ही में मेडिटेशन करना शुरू कर रहे हैं। जो हाल ही में मेडिटेशन की ओर कदम बढ़ा रहे हैं उन लोगों को एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि ध्यान लगते समय उन्हें नींद आती है। ऐसे में जानते हैं इसकी वजह और कैसे पाएं

इससे छुटकारा। मेडिटेशन आपके दिमाग को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है। यह आपकी याददाश्त में सुधार करने, तनाव को कम करने में मदद करता है। कई लोगों की शिकायत होती है कि उन्हें मेडिटेशन के दौरान नींद आती है। ऐसा मेडिटेशन के कारण बिल्कुल नहीं होता बल्कि नींद की कमी के कारण ऐसा होता है। नींद की कमी, पोषक तत्वों की कमी और तनाव ऐसे प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से आपको हर समय नींद आती है। ऐसे में आपको एक्टिव रहने के लिए काम करना चाहिए, ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है सही लाइफस्टाइल और एक अच्छा मेडिटेशन सेशन करना चाहिए, जिससे आप नींद को खत्म कर सकें।

खाने से पहले ध्यान करें

मेडिटेशन में पूरे शरीर को एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना और खुद के साथ एक आध्यात्मिक संबंध बनाना होता है। अगर आप खाने के ठीक बाद ध्यान करना शुरू करते हैं, तो आपको बहुत नींद आएगी क्योंकि आपका शरीर खाना और अन्य जटिल प्रक्रियाओं को पचाने में शामिल होगा और यह आपको विचलित करेगा। खाना खाने से पहले ध्यान करना अधिक फायदेमंद होगा क्योंकि आपका शरीर बिना विचलित हुए इसे पूरा करेगा।

जागरूक और एक्टिव रहें

ध्यान करते समय सचेत और एक्टिव रहना जरूरी है, आपको यह महसूस करना चाहिए कि आपके अंदर कुछ अच्छा हो रहा है। आप इन चीजों पर ध्यान लगाने के लिए सांस की एक्सरसाइज और कुछ शांत म्यूजिक बजा सकते हैं।

अपने ब्रेन को तैयार करें

मेडिटेशन प्रैक्टिस करना एक अच्छा कदम है। लेकिन बहुत लंबे मेडिटेशन सेशन से बचना बेहतर है क्योंकि शुरू में वे आपको नींद में डाल देंगे। आपको अपने दिमाग को इस तरह से प्रशिक्षित करना शुरू करना होगा कि आपका ध्यान अटूट रहे जो केवल 5 मिनट या 10 मिनट के छोटे सत्रों के साथ शुरू करने के बाद ही संभव होगा और फिर धीरे-धीरे लंबे समय तक आगे बढ़ें। जब आप छोटे सत्रों के लिए जागेंगे तो आपका दिमाग अपने आप काम करना शुरू कर देगा और ध्यान करते समय आपको नींद नहीं आएगी।

ओपन एरिया में करें ध्यान

खुले में ध्यान करना हमेशा बेहतर होता है क्योंकि आपका शरीर नेचर के साथ एक्टिव रिलेशन महसूस कर सकता है। इसके अलावा, आपके चारों ओर ठंडी हवा, पक्षियों की हल्की आवाज के साथ आपके मन को शांत करता है और ध्यान करते समय आपको एक्टिव महसूस करने के लिए मदद मिलती है।

समय सीमा की बैठक

नियद नेल्लानार योजना के स्वीकृत कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें - कलेक्टर श्री मांडी

धान खरीदी केन्द्रों में बारदाने उपलब्ध कराने तथा धान उठाव के दिये निर्देश



नियद नेल्लानार अंतर्गत आने वाले ग्रामों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने, शिविर लगाकर राशन, आधार, आयुष्मान कार्ड और श्रम कार्ड बनाने निर्देशित किये। बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान खरीदी केन्द्रों में धान खरीदी की समीक्षा कर मंडी से धान उठाव की व्यवस्था पूर्व में ही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

नियद नेल्लानार अंतर्गत आने वाले ग्रामों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने, शिविर लगाकर राशन, आधार, आयुष्मान कार्ड और श्रम कार्ड बनाने निर्देशित किये। बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान खरीदी केन्द्रों में धान खरीदी की समीक्षा कर मंडी से धान उठाव की व्यवस्था पूर्व में ही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने सेमदास बघेल की मृत्यु होने से श्रम विभाग एवं समाज कल्याण विभाग से परिवार सहायता राशि दिलाने, लाईवलीहुड कॉलेज नारायणपुर में 50 सीटर बालक छात्रावास निर्माण के लिए पर्यावरण एवं अधोसंरचना विकास उपकरण मद अंतर्गत राशि पुनरावर्तित करने निर्देशित किया। उन्होंने जल

जीवन मिशन की योजनाओं को लक्षित समय-सीमा में पूर्ण करने तथा जिले में युवा उत्सव के आयोजन हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने निर्देशित किया। कलेक्टर श्री मांडी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत स्वीकृत सविदा पदों की भर्ती पूर्ण करने, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनांतर्गत वन अधिकार प्रदायी किसानों एवं विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति के सेचूरेशन कराने, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम खरीफ वर्ष 2024 में राजस्व ग्राम अंतर्गत व पट्टाधारी कृषकों के प्रतिष्ठित कराने, जनदर्शन में दिए गए आवेदन पर कार्यवाही करने, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में दिये गये निर्देशानुसार जिले में संधारित निराश्रित निधि में उपलब्ध राशि के कार्ययोजना बनाने निर्देशित किया। कलेक्टर ने महिला

एवं बाल विकास विभाग, कृषि, कौशल विकास और नगरपालिका परिषद द्वारा संचालित योजनाओं का गहन समीक्षा किया। उन्होंने पशुधन विकास विभाग के उप संचालक को निर्देशित करते हुए कहा कि पशुधनों को बिमारियों से बचाने के लिए शिविर लगाकर टीकाकरण कराएँ। उन्होंने नारायणपुर मेनरोड पुलिस निमाण कार्य एवं पेयजल विद्युतीकरण सड़क निर्माण आदि लंबित कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि नियद नेल्लानार अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का निराकरण शीघ्र करें। श्री मांडी ने जनपद सीईओ, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास और जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि पंचायत के माध्यम से जन्म, मृत्यु, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र बनाने

के लिए प्रकरण तहसील कार्यालय में प्रेषित करने निर्देशित किये। उन्होंने जिले में दुग्ध समिति गठित कर शीघ्र क्रियान्वित किये जाने स्व सहायता समूहों के माध्यम से किये जाने हेतु विपणन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होंने किसानों द्वारा बोये गये फसलों की गिरदावरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने तहसीलदारों को निर्देश दिये। आधार कार्ड बनाने हेतु कैम्प लगाकर शतप्रतिशत पूर्ण कराएँ, जिससे हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं से लाभाविक्त किया जा सके। उन्होंने श्रम विभाग को श्रमिकों का पंजीयन करने, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित नोनी सुरक्षा योजना का लाभ दिलाने, समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को पेंशन और सहायक उपकरण शिविर लगाकर वितरण कराने तथा महतारी वंदन योजना

अंतर्गत लाभाविक्त हो रहे महिलाओं का मृत्यु होने पर नाम कटवाने के निर्देश दिये। प्रधानमंत्री जनमन योजनांतर्गत जिले में शिविर लगाकर आधार कार्ड, जनधन खाता, आयुष्मान कार्ड, चनाधिकार पत्र, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना से हितग्राहियों को लाभाविक्त किये जाने हेतु निर्देशित किये। कलेक्टर ने लोक स्वास्थ्य विभाग के कार्यपालन अभियंता को निर्देशित करते हुए कहा कि नियद नेल्लानार योजनांतर्गत स्वीकृत कार्यों को गंभीरता पूर्वक पूर्ण कराएँ। बैठक में अपर कलेक्टर वीरेंद्र बहादुर पंचभाई ने समीक्षा करते हुए कहा कि निर्माण एजेंसी विभाग से कार्य प्राप्त करने के पूर्व संबंधित विभाग से एनओसी लेना सुनिश्चित करें ताकि निर्माण कार्य आसानी से पूर्ण हो सके। धान खरीदी के लिए बारदाने

लक्ष्य के अनुरूप एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने बस्तर ओलंपिक 2024 के विजेता खिलाड़ियों को संभाग स्तरीय खेल में भाग लेने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने खेल अधिकारी को निर्देशित किये। उन्होंने समीक्षा करते हुए कहा कि नियद नेल्लानार योजनांतर्गत ग्रामीणों को लाभाविक्त करने के लिए शिविर लगाएँ। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत वासु जैन, संयुक्त कलेक्टर अभिषेक गुप्ता, डिप्टी कलेक्टर डॉ. सुमित गर्ग, सहायक आयुक्त आदिवासी डॉ. राजेन्द्र सिंह, सीएमएचओ डॉ. टी.आर. कुंवर, महिला एवं बाल विकास अधिकारी रविशंकर धुवे, जनपद सीईओ एलएन पटेल, मेघलाल मण्डवावी सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

धार्मिक मुद्दों के निस्तारण के लिए अलग ट्रिब्यूनल का गठन होना चाहिए-रीना एन सिंह अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट



(शीतल निर्भीक) नई दिल्ली। भारत जैसे बहुधर्म और बहुसांस्कृतिक देश में धार्मिक विवाद अक्सर समाज में तनाव और अस्थिरता का कारण बनते हैं। इन विवादों का त्वरित और न्यायपूर्ण समाधान आवश्यक है ताकि देश में धार्मिक सौहार्द और कानून व्यवस्था बनी रहे। इसके लिए एक अलग धार्मिक ट्रिब्यूनल का गठन एक प्रभावी कदम हो सकता है। सरकार को धार्मिक स्थलों से संबंधित विवादों के समाधान के लिए एक अलग ट्रिब्यूनल की स्थापना करनी चाहिए। यह ट्रिब्यूनल सामान्य अदालतों से अलग होगा और विशेष रूप से धार्मिक विवादों का निपटारा करेगा। इससे न केवल इन विवादों का त्वरित समाधान सुनिश्चित होगा, बल्कि राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। उक्त बातें सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता रीना एन सिंह ने एक खास वार्ता के दौरान कहा। उन्होंने कहा कि धार्मिक विवाद अक्सर समाधानशाली होते हैं और इनके कारण समाज में तनाव और अशांति का माहौल बन सकता है। एक विशेष ट्रिब्यूनल के माध्यम से इन विवादों को सुलझाने से विवादाि पक्षों को निष्पक्ष और विशेष समाधान मिलेगा। इसके अलावा, यह पहल सामान्य अदालतों के बोझ को भी कम करेगी और अन्य मामलों के निपटारे में तेजी लाएगी। ट्रिब्यूनल में धार्मिक और कानूनी विशेषज्ञों की नियुक्ति की जानी चाहिए ताकि निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके, साथ ही, इन ट्रिब्यूनल के



निर्णयों पर उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान होना चाहिए ताकि संवैधानिक प्रक्रिया का पालन हो। भारत का संविधान धार्मिक स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी देता है। सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ एडवोकेट रीना एन सिंह कहा कि अनुच्छेद 25-28: हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन, प्रचार और अभ्यास करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 14: कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण सुनिश्चित करता है, अनुच्छेद 226: उच्च न्यायालय को विशेष शक्तियां प्रदान करता है कि वह न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों द्वारा लिए गए निर्णयों की समीक्षा कर सके। हालांकि, संविधान धार्मिक विवादों के लिए अलग ट्रिब्यूनल का स्पष्ट उल्लेख नहीं करता, लेकिन संसद को विशेष कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 323बी के तहत, संसद और राज्य विधानसभाओं को विशेष ट्रिब्यूनल स्थापित करने का अधिकार है, धार्मिक मुद्दों पर शीघ्र और प्रभावी न्याय के लिए धार्मिक विवादों को सिविल कोर्ट में सुलझाने में वर्षों लग सकते हैं। उन्होंने कहा कि धार्मिक विशेषज्ञता के कारण ट्रिब्यूनल में धार्मिक

बस्तर को हराकर नारायणपुर अंडर 19 क्रिकेट टीम ने सेमीफाइनल में किया प्रवेश



भारत टाइम्स

नारायणपुर छत्तीसगढ़ (गोल्ड मरकाम)। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ द्वारा अंडर-19 दिवसी इंटर डिस्ट्रिक्ट टैटल स्लेक्शन क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया है जिसमें नारायणपुर की अंडर-19 क्रिकेट टीम के उत्कृष्ट प्रदर्शन जारी है। यह टीम विजय और मुकाबला रायपुर से साथ दल्ही राजहरा में हुआ जिसमें नारायणपुर ने शानदार जीत दर्ज की थी। इसके बाद दूसरा मैच दत्तेवाड़ा के साथ काकिरे में हुआ जिसमें दत्तेवाड़ा को एक पारी



और 193 रनों से रौंदा था जिसके बाद यूप स्टेज में आखिरी टीम बस्तर के साथ 2 दिवसीय को दल्हीराजहरा के बीएसपी ग्राउंड में हुआ है। यह मैच क्वाटरफाइनल के रूप में देखा जा रहा था क्योंकि गुप भी में बस्तर और नारायणपुर के बराबर पाईंटे थे जो टीम विजय होगी वह सेनिफाइनल पहुंचेगी जिस महत्वपूर्ण मुकाबले में नारायणपुर ने टॉस जीतकर पहले मुकाबला रायपुर से साथ दल्ही राजहरा में हुआ जिसमें नारायणपुर ने शानदार जीत दर्ज की थी। इसके बाद दूसरा मैच दत्तेवाड़ा के साथ काकिरे में हुआ जिसमें दत्तेवाड़ा को एक पारी



बल्लेबाजी में भी दिखाई दिया पहली पारी में नारायणपुर ने कुल स्कोर 52.5 ओवर में 206 जग पहुँचा नारायणपुर को पहली पारी में कुल 37 रन की बढ़त मिल चुकी थी इसी बढ़त के खत्म कर टारगेट देने के उम्मीद में बस्तर की टीम बल्लेबाजी करने उतरी जिसमें पूरी टीम कुल 30 ओवर में रन 97 रन बनाई और नारायणपुर को 61 रन का टारगेट मिला जिसे 6 विकेट खो कर जीत हासिल की नारायणपुर का अगला मुकाबला 6 से 8 दिसम्बर तक बिलासपुर ब्लू के साथ सेमीफाइनल होगा जिसे जीतने वाली टीम

एलिज गुप में प्रवेश करेगी नारायणपुर के खिलाड़ियों व खेल प्रेमियों के लिये एक बहुत सर्वांगीण पल है जिसमें अबुझाम्बा के खिलाड़ी पूरे छत्तीसगढ़ के खेलप्रेमियों को नारायणपुर की प्रतिभा के दर्शन करवा रहे है इस प्रदर्शनों से ना केवल नारायणपुर बल्कि पूरे बस्तर के खिलाड़ियों को क्रिकेट जैसे खेल में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन और अपना भविष्य बनाने के लिए प्रेरित करेगा जिला के सभी खेल प्रेमी और जिला क्रिकेट संघ के पदाधिकारी ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है और आने वाले मैचस के लिये शुभकामनाएं दी है।

स्टार प्लस कॉन्वेंट स्कूल में दो दिवसीय वार्षिक एथलेटिक मीट का समापन धूमधाम से हुआ

भारत टाइम्स

रामा मंडी अशोक कुमार। स्टार प्लस कॉन्वेंट स्कूल में दो दिवसीय वार्षिक एथलेटिक मीट का समापन धूमधाम से हुआ। दूसरे दिन विद्यार्थियों ने रंगारंग कार्यक्रम में नृत्य, गीता और भांडाड़ा प्रस्तुत किया। इस अवसर पर स्कूल के चेयरमैन विजय कुमार लहरी, अध्यक्ष तेलू राम लहरी, वित्त सचिव भूषण कुमार लहरी, उपाध्यक्ष रजत गर्ग, उपाध्यक्ष रघु नंदन गर्ग, उपाध्यक्ष वित्त सचिव शंभुम गर्ग, स्कूल निदेशक अकादमिक कृतिका गर्ग और प्रिंसिपल मोनिका धीमान विशेष रूप से उपस्थित थे। एथलेटिक मीट के दूसरे दिन की शुरूआत में स्कूल में ट्रैक गतिविधियों से हुई लंबी-छोटी दौड़ और डिस्कस थ्रो से मैदान का रोमांच चरम पर था। इस खेल प्रतियोगिता में बालक-बालिकाओं



के लिए 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, 400 मीटर दौड़, हडल रेस, लेमन रेस सहित कई अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। यह एथलेटिक मीट डोपी साहिबान की देखरेख में आयोजित की गई। स्कूल प्रबंधन और प्रिंसिपल मैडम ने खेल विजेताओं को मेडल देकर सम्मानित किया। इस मौके पर स्कूल के चेयरमैन विजय कुमार लहरी ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी और कहा कि वे बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए समय-समय



पर इस तरह की गतिविधियां आयोजित करते रहेंगे ताकि स्कूल के छात्र देश के सर्वश्रेष्ठ नागरिक बन सकें। समापन समारोह के दौरान राष्ट्रगान के साथ स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों ने एथलेटिक मीट के समापन की घोषणा की। धन्यवाद ज्ञापन विद्यालय की प्राचार्या श्रीमती मोनिका धीमान ने प्रस्तुत किया। इस समय विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य, विद्यालय स्टाफ एवं बच्चे उपस्थित थे।

कानपुर में जारी हत्याओं का दौर, बुजुर्ग किसान की हत्या कर शव कुएं में फेंका

भारत टाइम्स

सुनील बाजपेई कानपुर। इस महानगर में आजकल हत्याओं का दौर सा चल रहा है बीते तीन माह के अंदर आधा दर्जन लोग मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। इसी क्रम में विधु धानाक्षेत्र में भी पत्थर से सिर कुचलकर एक बुजुर्ग किसान की हत्या कर दी गई। उसकी लाश कुएं से बरामद किए जाने के बाद रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस हत्यारों की तलाश में लगातार जुटी हुई। यद्यपि घटना की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है लेकिन प्रथम दृष्टया इसकी वजह पुरानी रींज से जुड़ी बताई जाती है। पुलिस इस बारे में भी जांच पड़ताल कर रही है। घटना के बारे में प्राप्त विवरण के मुताबिक कहुई गांव निवासी किसान सरोज कुमार कुशवाहा अपने बटाईदार को छोड़ने उसके घर गए थे। जिसके बाद से सरोज कुमार वापस घर नहीं लौटे, रात भर कई जगह पर उनकी खोजबीन कराई गई। सुबह ग्रामीणों के माध्यम से सूचना मिली कि उनका शव गांव के बाहर कुएं में पड़ा हुआ है। जहां बड़ी संख्या में गांव वालों के साथ पहुंचे परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके सिर पर भारी पत्थर से वार कर हत्या की है। इसके बाद परिजनों ने शव को कुएं से बाहर निकालकर पुलिस को सूचना दी। बाद में मौके पर थाना पुलिस के साथ एडीसीपी साउथ, फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड भी पहुंचे। इस बीच डॉग स्क्वाड काफ़ी देर तक गांव के आसपास घूमता रहा। एडीसीपी साउथ महेश कुमार ने बताया कि मामले के सभी पहलुओं की जांच कर घटना का सटीक खुलासा जल्द किया जायेगा।

एकलव्य आदर्श आवास विद्यालय छोटेंडोंगर के अधीक्षक रामकिर्तन मरकाम निलंबित

भारत टाइम्स

नारायणपुर छत्तीसगढ़ (गोल्ड मरकाम)। जिले के बालक आश्रम शाला कुशुभार के प्रधान पाठक एवं एकलव्य आदर्श बालक आवासीय विद्यालय ओरछा (छोटेंडोंगर) के पूर्व अधीक्षक श्री रामकिर्तन मरकाम के विरुद्ध आदिवासी विकास विभाग सहायक आयुक्त द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 (एक), 3-क के विपरीत कृत्य किया जाना पाये जाने के कारण कलेक्टर श्री बिपिन मांडी द्वारा अधीक्षक श्री रामकिर्तन मरकाम को सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री रामकिर्तन मरकाम का मुख्यालय

भारत टाइम्स

अशोक कुमार रामा मंडी। स्टार प्लस कॉन्वेंट स्कूल में दो दिवसीय वार्षिक खेल एथलेटिक मीट का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर विशेष रूप से स्कूल के चेयरमैन विजय कुमार लहरी, अध्यक्ष तेलू राम लहरी, वित्त सचिव भूषण कुमार लहरी, उपाध्यक्ष रजत गर्ग, उपाध्यक्ष रघु नंदन गर्ग, उपाध्यक्ष वित्त सचिव शंभुम गर्ग, स्कूल निदेशक अकादमिक कृतिका गर्ग और प्रिंसिपल मैडम सुश्री मोनिका धीमान उपस्थित थे। स्कूल प्रबंधन समिति ने गुब्बारे उड़ान और झंडा फहराकर मीट का शुभारंभ किया। बच्चों ने फ्लैग मार्च किया और स्कूल प्रबंधन समिति ने मार्च कर रहे बच्चों को सलामी दी। खेल का शुभारंभ विद्यार्थियों द्वारा मशाल जलाकर किया गया। छात्र-छात्राओं के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। स्पोर्ट्स मीट में बच्चों की 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर दौड़, लंबी कूद, रिले दौड़, गोला फेंक आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। पहले दिन के खेल में विजेता बच्चों को विक्ट्री स्ट्रीट पर मेडल पहनाए गए। इन प्रतियोगिताओं में सभी बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी अध्यापकों एवं बच्चों ने इन प्रतियोगिताओं का भरपूर आनंद उठाया। स्कूल के चेयरमैन विजय लहरी ने खेलने वाले बच्चों को सम्मानित किया और बच्चों को स्पोर्ट्स मीट के लिए बधाई दी। कार्यक्रम में मंच संचालन की भूमिका मैडम रुचिका ने निभाई इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य, विद्यालय स्टाफ एवं बच्चे उपस्थित थे।

भारत टाइम्स

कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी ओरछा नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निलंबित भत्ता की प्राप्ता होगी।



आयोजन की झलकियां

सुरक्षित महाकुम्भ, 45 करोड़ श्रद्धालुओं की सुरक्षा करेंगे हाईटेक रिमोट लाइट बॉय

जवानों के लिए अत्याधुनिक लाइफ जैकेट, 04 नई फ्लोटिंग जेटी और रेस्क्यू ट्यूब आए

◆भारत टाइम्स◆

प्रयागराज। महाकुम्भ 2025 को सनातन धर्म का सबसे बड़ा आयोजन बनाने के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार हर आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम में हर परिस्थिति में 45 करोड़ लोगों के संगम स्नान का पूरा सुरक्षित प्लान तैयार कर लिया गया है। इसके लिए पीएसी के साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मिलकर काम कर रही है। जिसमें बाकायदा एक एक श्रद्धालु की सुरक्षा को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। यहां 700 झंड़े लगी नाव पर 24 घंटे पीएसी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान तैनात रहेंगे। संगम में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को मौजगिरी के रास्ते सुरक्षित निकाले जाने की योजना बनाई गई। सबसे खास बात यह है कि संगम नोज से किलाघाट तक सभी जर्जर नाव हटाई जाएगी। इसी क्रम में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर रिमोट लाइट बॉय तैनात किए गए हैं, जो पलक झपकते कहीं भी पहुंचने में सक्षम हैं और किसी भी अनहोनी से पहले व्यक्ति को सुरक्षित स्थान ले जाने में सक्षम हैं।

एक-एक श्रद्धालु की सुरक्षा पर नजर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महाकुम्भ को धरती का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन बनाने की तैयारी दिन रात चल रही है। इसके दृष्टिगत सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक, पूर्वी जोन, प्रयागराज डॉ. राजीव नारायण मिश्र और कमांडेंट एसडीआरएफ सतीश कुमार संगम नोज और वीआईपी घाट पहुंचे। उन्होंने



07 स्पेशल कंपनी पीएसी तैनात

जवानों की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एक-एक

श्रद्धालु की सुरक्षा पर नजर रखी जाएगी। साथ ही पीएसी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम के जवानों को हर

आधुनिक टेकोलॉजी से प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जवानों के लिए अत्याधुनिक लाइफ जैकेट, 04 नई फ्लोटिंग जेटी और

बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ट्यूब मंगा लिए गए हैं, जिससे किसी भी विषम परिस्थिति से निपटने में हमारे जवान सक्षम रहेंगे।

विषम परिस्थिति से निपटने के लिए पूर्वाभ्यास

महाकुम्भ को सफल एवं निर्विघ्न संपन्न करने के उद्देश्य से 4वीं वाहिनी एवं 42वीं वाहिनी के पीएसी के बाढ़ राहत दलों ने संगम घाट और विकसित किए जा रहे विभिन्न स्नान घाटों की भौगोलिक स्थिति का भी निरीक्षण किया। साथ ही किसी भी विषम परिस्थिति से निपटने के लिए पूर्वाभ्यास भी किया गया। प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक, पूर्वी जोन, प्रयागराज डॉ. राजीव नारायण मिश्र ने जवानों को सजा रहकर अपने दायित्व का निर्वहन करने का निर्देश दिया। दलनायक बाढ़ राहत दल 4वीं वाहिनी पीएसी रवीन्द्र प्रसाद, दलनायक 42वीं वाहिनी मिथिलेश राय ? ने भी जवानों की टीम को श्रद्धालुओं की सुरक्षा में मुस्तैद रहने के तरीके बताए।

वीआईपी मूवमेंट वाले किला घाट पर स्पेशल फोर्स की तैनाती

वीआईपी मूवमेंट वाले किला घाट पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। यहां पर स्पेशल फोर्स की तैनाती की जा रही है, जिससे देश विदेश से आने वाले एक भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की दिक्कत न होने पाए। यही नहीं, सरस्वती घाट से लेकर संगम घाट तक कड़ी सुरक्षा का विशेष इंतजाम किया जा रहा है। यहां डीप बैरिकेडिंग की जा रही है। इसके अलावा घाट पर चारों तरफ जाल लगाने का काम अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है।

जनपद निधि से लाखों के निर्माण कार्य



◆भारत टाइम्स◆

रहीम शेरानी। झाबुआ। मेघनगर विकास खंड के दूर दराज ग्रामीण आंचलों में मेघनगर जनपद निधि से होने वाले निर्माण कार्यों का ग्रामीण अंचलों के लिए अध्यक्ष ने स्वीकृत दी गई हैं निर्माण कार्यों के भूमि पुजन लगातार किया जा रहा है। थंडला क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक वीरसिंह भूरिया, जनपद अध्यक्ष श्रीमती ललिता मुकुंश मुणीया, ने लाखों की लागत से बनाया वाली नाली का नारियल, कंकू, अगरबत्ती, मिठाई आदी पुजन सामग्री से विधोवत पुजा कर भूमि पुजन किया एवं गीती चलाकर उद्घाटन किया मद्रानी सरपंच तेज जंगल सिंह डिंडोर, उप

सरपंच शंकर गणावा, खिमा सिंगाडिया, मुकेश डिंडोर, बिंदु भारी, महेश पांचाल, बसंत प्रजापत, जनपद उपाध्यक्ष गौरसिंह वसुनिया, युवा नेता मुकेश मुणीया, बीपीओ महेंद्र भाबर, पत्रकार रहीम शेरानी, मद्रानी के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे मद्रानी के लोगों ने नल-जल योजना के नलों से आ रहे गंदे पानी एवं लाईट की समस्याओं से क्षेत्रीय विधायक वीर सिंह भूरिया ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को दुर्भाष पर चर्चा कर समस्याओं को तत्काल खत्म करने को कहा और भी अन्य निर्माण कार्य की मांग की गई बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।

उदयपुरिया झाराडाबर में पुलिया निर्माण का भूमि पुजन हुआ

◆भारत टाइम्स◆



रहीम शेरानी। झाबुआ।

जिला के मेघनगर विकासखंड की ग्राम पंचायत उदयपुरिया झाराडाबर में मेघनगर जनपद अध्यक्ष ललिता मुकुंश मुणीया ने ग्राम वासियों की मांग पर पुलिया निर्माण की जनपद निधि से स्वीकृत दी। लाखों के पुन बनाए का उद्घाटन पूजा पाठ कर किया गया- उदयपुरिया ग्रामीणों द्वारा बताया गया के वर्षों से हम लोग परेशानीयो का सामना कर रहे थे बारिश के समय स्कूल जाने वाले बच्चे एवं भवेशियों को भी निकलने में परेशानि होती थी। ग्राम वासियों की लगातार मांग एवं समस्याओं को देखते हुए मेघनगर जनपद अध्यक्ष ललिता मुकुंश मुणीया ने क्षेत्रीय विधायक वीरसिंह भूरिया के साथ पुजा पाठ कर लाखों के पुलिया निर्माण का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक

वीरसिंह भूरिया, जनपद अध्यक्ष ललिता मुकुंश मुणीया कांग्रेस के युवा नेता मुकेश मुणीया, पत्रकार रहीम शेरानी आदी की उपस्थिति में ग्राम वासियों ने खुशी जाहिर करते हुए फूलों की माला पहनाकर सभी का जोरवार स्वागत किया। इस अवसर खंड पंचायत अधिकारी महेंद्र भाबर, युवा नेता मुकेश मुणीया, जनपद सदस्य रेखा अम्बु गवरा, तान सिंह, सरपंच तोलू अर्जुन मेड़ा, जनपद सदस्य कल्याण कटारा, जनपद सदस्य धोमस भूरिया, आदी ग्रामीण जनों की उपस्थिति में भूमि पुजन किया गया।

कलेक्टर द्वारा जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों के तत्काल निराकरण के निर्देश दिए

◆भारत टाइम्स◆

रहीम शेरानी। झाबुआ। झाबुआ कलेक्टर नेहा मीना द्वारा जिला मुख्यालय पर जनसुनवाई ली गई। जनसुनवाई में आवेदक डॉ. सरदारसिंह गाडरिया निवासी भगतसिंह नगर रतनपुरा जिला झाबुआ द्वारा बताया गया कि उनको सेवा निवृत्त होने पर पेंशन चालू नहीं हुई जो की पेंशन चालू करवाने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदक ग्राम पंचायत मछलईनाटा द्वारा बताया गया कि उनके बर्षों पर भूमि पर डाले गये कचरे को हटवा कर आबादी क्षेत्र घोषित करने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदक प्रेमचंद्र पिता पुना गामड निवासी ग्राम हमीरगढ़ द्वारा बताया गया कि उन्होंने सोयाबीन की खेती करती थी जो पूरी तरह हट हो जाने पर खरीफ फसल की प्रधानमंत्री बीमा राशि स्वीकृत करने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदक कसरा पिता दीता मोरी एवं प्रकाश पिता राजिया डामोर निवासी ग्राम



रोजिया द्वारा बताया कि उनके फलिये में पीने के पानी की बहुत परेशानी होने के कारण नवीन पाईप लाईन या हंडपम्प खनन करने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदक गवरसिंह पिता जगदीश सोलकी निवासी ग्राम हमीरगढ़ तहसील पेटलवादा द्वारा बताया गया कि उनको भूमि के संबंध में आवेदन प्राप्त हुआ जिससे वह ना खुश होकर आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदक दिनु पिता रतन सिंगाडिया निवासी ग्राम कचलदरा तहसील मेघनगर द्वारा बताया गया कि उसकी पुत्री को 04 माह से विधवा द्वारा जबरदस्ती

पकड़कर अगवा करने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया। कलेक्टर नेहा मीना द्वारा सम्बंधित अधिकारियों को समस्याओं को समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। इस प्रकार विभिन्न विभागों से संबंधित जनसुनवाई में कुल 51 आवेदन आए। इस दौरान मुख्य कार्यालयन अधिकारी जिला पंचायत जितेंद्रसिंह चौहान, डिप्टी कलेक्टर हरिशंकर विश्वकर्मा, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्रीमती निशा मेहरा एवं समस्त विभाग के जिला अधिकारी एवं तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।

वाराणसी में रेलवे सुरक्षा बल की महत्वपूर्ण कार्रवाई

◆भारत टाइम्स◆

संजय यादव। वाराणसी। मंगलवार को रेलवे सुरक्षा बल, पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा रेल सम्पत्ति की सुरक्षा एवं अवैध सामानों की धर-पकड़ सहित यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने का निरन्तर प्रयास किया जाता है। इसी क्रम में 01 दिसम्बर, 2024 को रेलवे सुरक्षा बल, बनारस को निगरानी के दौरान प्लेटफार्म संख्या-01 पर 11 वर्ष का एक लड़का लावारिस हालत में मिला। पृष्ठताळ के उपरान्त लड़के को चाइल्ड लाइन छपरा को सुपुर्द किया गया। 01 दिसम्बर कक्ष, वाराणसी द्वारा गाड़ी संख्या-12204 में यात्रा कर रही महिला के प्रसव पीड़ा की प्राप सूचना पर रेलवे सुरक्षा बल देवरिया सदर द्वारा अटेंड कर एम्बुलेंस के माध्यम से महिला को सदर अस्पताल देवरिया भेजा गया। 130 नवम्बर को रेलवे सुरक्षा बल वाराणसी सिटी एवं अपराध आसूचना शाखा वाराणसी द्वारा सारनाथ रेलवे स्टेशन के सकुलेंटिंग एरिया से आरक्षित टिकटों के अवैध कारोबार में संलिप्त एक टिकट दलाल को 02 काउण्टर टिकटों एवं दो मांग पत्र के साथ गिरफ्तार किया गया। 30

नवम्बर को रेलवे सुरक्षा बल स्कॉट पार्टी को गाड़ी संख्या-20504 में 08 वर्ष का एक लड़का लावारिस हालत में मिला। पृष्ठताळ के उपरान्त लड़के को चाइल्ड लाइन छपरा को सुपुर्द किया गया। 01 दिसम्बर कक्ष, वाराणसी द्वारा गाड़ी संख्या-12204 में यात्रा कर रही महिला के प्रसव पीड़ा की प्राप सूचना पर रेलवे सुरक्षा बल देवरिया सदर द्वारा अटेंड कर एम्बुलेंस के माध्यम से महिला को सदर अस्पताल देवरिया भेजा गया। 130 नवम्बर को रेलवे सुरक्षा बल वाराणसी सिटी एवं अपराध आसूचना शाखा वाराणसी द्वारा सारनाथ रेलवे स्टेशन के सकुलेंटिंग एरिया से आरक्षित टिकटों के अवैध कारोबार में संलिप्त एक टिकट दलाल को 02 काउण्टर टिकटों एवं दो मांग पत्र के साथ गिरफ्तार किया गया। 30

पिरामल फाउंडेशन का टी बी मुक्त अभियान, फाउंडेशन ने रखी जनपद सभा कक्ष में महत्वपूर्ण बैठक

◆भारत टाइम्स◆

रहीम शेरानी। झाबुआ। झाबुआ जिले के मेघनगर जनपद सभा कक्ष में राष्ट्रीय टी.बी. उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत टी. बी. मुक्त झाबुआ ग्राम पंचायत अभियान के चलते जिले के मेघनगर जनपद सभा कक्ष में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पिरामल फाउंडेशन के जिला स्तर पर पदस्थ डीपीओ जोन मंडोरिया, डिपीसी गणेश देपाले पिरामल फाउंडेशन के जमीनी कार्यकर्ता चंदा शर्मा, चेतना साहू, वैभव गोरे, स्नेहिल त्रिवेदी, निशिगंधा भंडारकर, कामरान आजम, अंकित कोठारे मेघनगर सामुदायिक स्वास्थ्य विभाग से बीपीएम अनील वीलवाल, एस पी एस संजय मेड़ा, एस पी एस शाना कनेश सि, एच, ओ, संगीता, रिंतु, काजल, अंजलि, आदी जनपद सभा कक्ष में बैठक को संबोधित करते हुए अनुविभागीय अधिकारी मुकेश सोनी ने बताया के हमारे झाबुआ जिले से टी. बी, के मरीजों से लगातार संपर्क कर उन्हें दवाई के किट पैकेज दिलावा कर इस



गम्भीर बिमारी से मुक्ति दिलावाना है अनुविभागीय अधिकारी मुकेश सोनी ने कहा कि ऐसे मरीजों को पोषण आहार की बहुत आवश्यकता होती है इसलिए सामाजिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए यहां उपस्थित रॉटरी क्लब अपना के संस्थापक अध्यक्ष भरत मिस्त्री से अनुरोध करता हूँ के वे भी चार गांव के मरीजों को गोद लेकर पोषण आहार संस्था की ओर से ! मेघनगर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विनोद नायक, मेघनगर जनपद अध्यक्ष भरत मिस्त्री, पत्रकार रहीम शेरानी, आदी उपस्थित थे झाबुआ जिले से टीबी की बिमारी को खत्म करने के लिए पिरामल फाउंडेशन के कार्यकर्ता दूर ग्रामीण अंचलों में जाकर कार्य कर रहें हैं।

सम्बोधित करते हुए कहा के हम भी सभी सरपंच पंच एवं ग्रामीण लोगों से बैठक कर चर्चा करेंगे और जो भी ग्रामीण मरीज होगा उस स्वास्थ्य केंद्र लेकर इलाज करवायेंगे इस बैठक में अनुविभागीय अधिकारी मुकेश सोनी, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विनोद नायक, मेघनगर जनपद अध्यक्ष भरत मिस्त्री, पत्रकार रहीम शेरानी, आदी उपस्थित थे झाबुआ जिले से टीबी की बिमारी को खत्म करने के लिए पिरामल फाउंडेशन के कार्यकर्ता दूर ग्रामीण अंचलों में जाकर कार्य कर रहें हैं।

करमदी पंचायत के रमेश सिंह ने चौथी बार पैक्स अध्यक्ष चुनाव में किया जीत हासिल



◆भारत टाइम्स◆

गया। जिले के आमस प्रखंड अंतर्गत करमदी पंचायत के रमेश सिंह ने लगातार चौथी बार पैक्स अध्यक्ष चुनाव में जीत हासिल की वहीं उन्होंने बताया जब से यह सरकार की योजना

आई है मैं जीत आ रहा हूँ और जनता का सेवा करता आ रहा हूँ और आगे भी करता करूंगा। वहीं उन्होंने बताया कई सरकार की नहीं योजना भी आ रही है मैं जनता के बीच सारी योजना को धरातल पर ला रहा हूँ।

पत्रकार को मिली धमकी को लेकर ईई पीडब्ल्यूडी के खिलाफ जिला प्रेस क्लब ने की कलेक्टर व एसपी से की शिकायत,मामले में राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम दिया गया झापन

◆भारत टाइम्स◆

बालोद। बालोद में पदस्थ पीडब्ल्यूडी ईई मधेश्वर प्रसाद द्वारा जिला प्रेस क्लब के महासचिव पत्रकार राहुल भूतड़ा को धमकी देने को लेकर जिला प्रेस क्लब के अध्यक्ष संतोष साहू के नेतृत्व में मंगलवार को कलेक्टर और एसपी को जापन सौंपकर मामले पर जांच समिति गठित कर मामले की निष्पक्षता से जांचकर उचित कार्यवाही करने की मांग किया है।उक्त मामले पर कलेक्टर इंद्रजीत चंद्रावल और एसपी एस आर भगत ने मामले पर तत्काल जांच करने का आश्वासन दिया है। जिला प्रेस क्लब के अध्यक्ष संतोष साहू ने बताया कि गत दिनों प्रदेश के उपमुख्यमंत्री अरुण साव का बालोद जिले के डौंडी ब्लॉक मुख्यालय आमन हुआ था इस दौरान दल्लौराजहरा नगर पालिका के भाजपा पाषंद टी ज्योति द्वारा पीडब्ल्यूडी किए गए निर्माण कार्य में अनियमितता की शिकायत की थी तथा शिवसेना के जिलाध्यक्ष द्वारा भी लोकनिर्माण विभाग में टेंडर प्रक्रिया की गड़बड़ी को लेकर लिखित शिकायत की है



थी। जिस पर मंत्री से पत्रकारों द्वारा सवाल जवाब के आधार पर खबरें प्रकाशित एवं प्रसारण के लिए अपने अपने चैनलों में भेजा गया।जिन खबरों को प्रसारण/प्रकाशन का अधिकार चैनल के संपादक का होता है और तथ्यों के आधार पर खबरें विभिन्न चैनलों

को प्रकाशित एवं प्रसारित किया गया। वहीं इस बीच छग शासन द्वारा बालोद पीडब्ल्यूडी के ईई सहित विभिन्न जिलों के अधिकारियों का तबादला आदेश जारी हुआ जिस पर भी जिले के पत्रकारों के रिपोर्टिंग के आधार पर चैनलों में खबरें प्रसारित की गई। तथा पीडब्ल्यूडी ईई

के खिलाफ 2014 में हुए एसीबी की कार्यवाही तथा 2021 में दुष्कर्म के मामले में हुई कार्यवाही सहित अन्य मामलों में भाजपा जिला अध्यक्ष और कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने भी बयान दिया था जिस आधार पर खबरें प्रसारित हुईं। लेकिन इन सब के बाद बालोद

लोक निर्माण विभाग के कार्यालयन अभियंता द्वारा जिला प्रेस क्लब के महासचिव एवं कठल 24 .7 न्यूज चैनल रिपोर्टर राहुल भूतड़ा को मामले पर मोबाइल के माध्यम से कानूनी नोटिस एवं कानूनी कार्यवाही कराने की धमकी दिया गया जिससे पत्रकार साथी काफी भयभीत है। तथा अधिकारी द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पत्रकार पर दबाव एवं भय दिखाकर पत्रकारिता को प्रभावित करने सहित झूठे मामलों में साजिश के तहत फंसाने का प्रयास किया जा सकता है। जिला प्रेस क्लब ने उक्त मामले पर जांच समिति गठित कर मामले की निष्पक्षता से जांचकर उचित कार्यवाही करने की मांग कलेक्टर व एसपी से किया है।जापन सौंपने के दौरान जिला प्रेस क्लब अध्यक्ष संतोष साहू,राहुल भूतड़ा,मोहनदास मानिकपुरी, रवि भूतड़ा,किशोर साहू,स्वाधीन जैन,अरुण उपाध्याय,दीपक देवदास,अनीश राजपूत, नितेश वर्मा,राजू साहू,नरेश श्रीवास्तव, पूरकान खान,जगन्नाथ साहू,सुप्रोत शर्मा,लक्ष्मीकान्त बंसोड़ सहित अन्य पत्रकार शामिल थे।

दिव्यांगजनों ने साबित किया-हम किसी से कम नहीं: सीएम योगी

मुख्यमंत्री ने विश्व दिव्यांग दिवस पर राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह को

मुख्यमंत्री ने 19 लोगों को राज्य स्तरीय, हाईस्कूल- इंटरमीडिएट के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को किया पुरस्कृत

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने दिव्यांग शब्द और भावनाओं को सम्मान देकर उन्हें गरिमामयी पूर्ण तरीके से जीवन व हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान की। दिव्यांगजनों को जब भी अवसर मिला तो अपनी प्रतिभा से उन्होंने इस शब्द की पुष्टि की। सीएम योगी ने श्रुषि अष्टावक्र, महाकवि सूरदास, भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग, जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य समेत अनेक उदाहरण दिए। कहा कि जिन्हें भी मंच व समाज का प्रोत्साहन-संबल मिला तो उन्होंने देश-दुनिया व मानवता को अपनी प्रतिभा का लाभ दिया और यह साबित किया कि वे किसी से कम नहीं हैं। विश्व दिव्यांग दिवस इसी दृष्टिकोण को अपनाने के लिए समाज को नई प्रेरणा प्रदान करने का माध्यम है।



तबके के लिए कार्य करते हुए पीएम मोदी के विजन 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र के साथ बढ़ रही है।

शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय व चित्रकूट में जगद्गुरु रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय) है। अलग-अलग क्षेत्रों में दृष्टिबाधित, मूकबधिर व अन्य बच्चों के लिए भी कॉलेज संचालित है, लेकिन इनकी संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है।

ने कहा कि राजकीय सेवाओं में दिव्यांगों के लिए 4 फीसदी आरक्षण की भी व्यवस्था है। कानपुर देहात के रामचंद्र गुप्ता की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि दिव्यांग होने के बावजूद वे स्वावलंबन और आत्मनिर्भर के मॉडल हैं। इससे साबित होता है कि इच्छाशक्ति होगी तो बड़े से बड़ा कार्य किया जा सकता है। दिव्यांगजनों की प्रतिभा व ऊर्जा का

सबसे अच्छा उदाहरण पेरिस पैरालंपिक रहा, जिसमें शानदार प्रदर्शन से मेडल की झड़ी लग गई थी। सीएम ने कहा कि सरकारी भवनों व संस्थाओं से कहा गया है कि दिव्यांगजनों के चढ़ने के लिए रैंप बनवाएं। परिवहन निगम की बसों में दिव्यांगों की नि:शुल्क यात्रा के लिए 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। शादी-विवाह के लिए (40 फीसदी वाले

दंपती) पति के दिव्यांग होने पर 15 हजार, पत्नी के लिए 20 हजार व दोनों के दिव्यांग होने पर 35 हजार रुपये की सहायता उपलब्ध कराते हैं। दुकान निर्माण के लिए 20 हजार व दुकान, गुमटी, हाथ ठेला संचालन के लिए 10 हजार रुपये अनुदान दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्य करने की इच्छाशक्ति होनी चाहिए, फंड बाधा नहीं है। यदि चुपचाप तैयारी करेंगे तो रिजल्ट प्रतिभा को प्रदर्शित करेगा।

सीएम योगी ने कहा कि कार्य करने की इच्छाशक्ति होनी चाहिए, फंड बाधा नहीं है। यदि चुपचाप तैयारी करेंगे तो रिजल्ट प्रतिभा को प्रदर्शित कर देगा। सीएम ने बताया कि 2017 में प्रदेश में केवल 7-8 लाख दिव्यांगजनों को पेंशन मिलती थी, वह भी महज 300-300 रुपये। यह राशि छह महीने में आती थी तो आधा पैसा बावू खा जाता था, लेकिन हम लोग सीधे लाभार्थी के खाते में धनराशि भेजते हैं। हमने यह राशि 300 रुपये से बढ़ाकर एक हजार रुपये की। अब 11 लाख दिव्यांगजन 12 हजार रुपये वार्षिक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तीन हजार रुपये मासिक कुशलवस्था पेंशन पीड़ित व्यक्ति के परिवार को उपलब्ध कराते हैं।

पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए भी अनेक कार्य कर रही सरकार

सीएम योगी ने कहा कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से जुड़े अनेक कार्यक्रमों को सरकार ने बढ़ाया। 2016-17 में विभाग को 1295 करोड़ बजट दिया जाता था, अब यह राशि लगभग 2800 करोड़ रुपये हो गई। इसमें 116 प्रतिशत की वृद्धि की गई। 2016-17 में पूर्ववर्षीय योजना के लिए 107 करोड़ बजट आवंटित था, इससे 5.19 लाख छात्र-छात्राएं लाभान्वित होती थीं। अब बजट 160.16 करोड़ किया गया है, जिससे 7.58 लाख विद्यार्थी लाभ ले रहे हैं। पिछड़ा वर्ग से जुड़े छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। 2016-17 में 983 करोड़ की लागत से 13.64 लाख बच्चे दशमोत्तर छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त करते थे। उस समय केवल 11.13 लाख छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ दिया जाता था। अब 2070 करोड़ रुपये से 19.80 लाख छात्र-छात्राओं को दशमोत्तर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ मिल रहा है यानी 2016-17 में आज 1100 करोड़ रुपये अतिरिक्त दशमोत्तर छात्रों को छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ दे रहे। इससे 7 लाख अतिरिक्त बच्चे लाभान्वित हो रहे। 2016-17 में अनुदान राशि 141 करोड़ रुपये से 70 हजार बेटियों को लाभ प्राप्त हो पाया था। इस समय 200 करोड़ रुपये की लागत से एक लाख बेटियों को लाभान्वित किया जा रहा है।

काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन

संजय यादव। वाराणसी। काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के अंतर्गत आदमपुर और रामनगर जोन की जोन स्तरीय प्रतियोगिता का उद्घाटन 03 दिसम्बर को विधायक (शहर दक्षिणी) नीलकंठ तिवारी के कर कमलों द्वारा डालिमस सनबीम ग्लोबल स्कूल रामकटोरा वाराणसी में हुआ। मंच से अपने संबोधन में विधायक ने कार्यक्रम का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया। मंच से अपने संबोधन में विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव 2024 का आयोजन विद्यालय जोन स्तर एवं जनपद स्तर



पर किया जा रहा है जिसमें विभिन्न विद्यालयों के बच्चे एवं वयस्क प्रतिभाग कर रहे हैं और यह एक ऐसा मंच है। जिस अंदर की छिपी हुई वादन, नृत्य, गायन एवम नुक्कड़ नाटक जैसी विधा में प्रतिभागों को विकसित होने का अवसर मिलेगा तथा सांस्कृतिक विधा में भी प्रतिभागियों द्वारा अपनी विशिष्ट पहचान बनाई जा सकती है। उन्होंने

प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे सभी बच्चों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित कीं। जोन स्तरीय प्रतियोगिता के प्रतिभागी बच्चों को विधायक द्वारा सर्टिफिकेट का भी वितरण किया गया। वादन प्रतियोगिता के अंतर्गत वादन (18 वर्ष से कम आयु वर्ग) के वादन प्रतियोगिता के उपविधा बांसुरी बजवा कर उन्होंने जोन स्तरीय काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव

2024 की शुरुआत कराई। इस अवसर पर योगेश सिंह पिंको, गोपाल जी गुप्ता मण्डल अध्यक्ष भाजपा व अन्य पदाधिकारियों सहित जोनल अधिकारी शिखा मौर्या, खड्ड शिक्षा अधिकारी आदमपुर व रामनगर जोन स्कन्द गुप्त, प्रभु नारायण इंटर कॉलेज रामनगर के प्रधानाचार्य डॉ. प्रभास कुमार झा, डालिमस सनबीम के प्रिंसिपल दीपेंद्र वर्मा व निर्णायक गण क्रमशः प्रभास महाराज, त्रिलोकी मिश्रा सहित अन्य सहयोगी रहमत अली, अनूप लाल यादव चंद्र मोहन, दीपक पांडेय, धीरेन्द्र सिंह सहित विभिन्न विद्यालयों के अध्यक्ष एवं प्रतिभागी बच्चे उपस्थित रहे।

आर.पी.एफ ने विद्युत सामान्य विभाग को 13 रनों से हटाकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया

संजय यादव। वाराणसी। मंगलवार को मंडल रेल प्रबंधक विनीत कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन एवं मंडल क्रीडा अधिकारी बलेंद्र पाल के नेतृत्व में मंडल के मिनी स्टेडियम में चल रही अंतर विभागीय 20-20 प्रतियोगिता में 03 दिसम्बर को तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच आर.पी.एफ और विद्युत सामान्य के बीच खेला गया। आर.पी.एफ ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 177 रन बनाए। आर.पी.एफ की तरफ से शेषनाथ ने 43 बॉल पर 10 चौके और एक छक्के की मदद से 63 रन रामप्रवेश ने 29 बॉल पर चार चौके की मदद से 24 रन, अर्जुन राय ने चार बॉल पर दो चौके और दो छक्के की मदद से 20 रन और राम बहादुर ने 11 बॉल पर दो चौके और एक छक्के की मदद से 20



रन बनाए। विद्युत सामान्य की तरफ से रोशन कुमार ने चार ओवर में 41 रन देकर तीन विकेट प्रवीण कुमार ने तीन ओवर में 40 रन देकर दो विकेट, करण कुमार ने चार ओवर में 29 रन देकर

2 विकेट लिए तथा भगवान यादव को एक विकेट प्राप्त हुआ, 178 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए विद्युत सामान्य की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 163 रन ही बना सकी इस प्रकार आर.पी.एफ ने 13 रन से मैच जीत कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। आर.पी.एफ की तरफ से संतोष ने तीन ओवर में 19 रन देकर तीन विकेट, जावेद ने चार ओवर में 29 रन देकर तीन विकेट लिए तथा शेषनाथ और सतीश चंद्रा को एक-एक विकेट प्राप्त हुआ। 43 बॉल पर 63 रन बनाने वाले आर.पी.एफ के शेषनाथ को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार सीनियर कमांडेंट एस रामकृष्णन के द्वारा दिया गया। चौथा क्वार्टर फाइनल मैच दिनांक 10 दिसम्बर 2024 को कार्मिक और संरक्षा विभाग के बीच खेला जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन अभियान एवं बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का आयोजन

रजा सिद्दीकी। गया। महिलाओं को किया जा रहा जागरूक अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन अभियान एवं बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का आयोजन गया के टिकारी प्रखंड अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र शांतिनगर, खनेट में एक चौपाल के माध्यम से किया गया। चौपाल में सामाजिक कुरीतियों जैसे बाल विवाह, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न तथा लैंगिक भेदभाव एवं सरकारी योजनाओं के बारे में उपस्थित महिलाओं और किशोरियों को जानकारी दी गयी महिला एवं बाल विकास निगम गया के जिला प्रोग्राम पदाधिकारी डॉ. रश्मि



वर्मा ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान, लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अधिकारों की रक्षा के लिए इस अभियान के महत्व पर प्रकाश डाला गया। वन स्टॉप सेंटर और 181 हेल्पलाइन जो महिलाओं

के लिए चरित, दीर्घकालीन सहायता और सुरक्षा सेवाओं हेतु कार्य करती है पर चर्चा की गई एवं इनके द्वारा हरी झंडी दिखाकर एक रैली निकाली गयी प्रयास जेएसी संस्था के जिला समन्वयक देवेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा

बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत बाल विवाह रोकने के उपाय और इसके दुष्परिणामों को समझाया गया। साथ ही सम्बन्धित कानून अंतर्गत सजा के बारे में बताया गया कि बाल विवाह में शामिल लोगों को 2 वर्ष की कठोर कारावास और 1 लाख तक जुमाना या दोनों से जुड़ना पड़ता है उपस्थित सभी को बाल विवाह के विरुद्ध शपथ दिलवाया गया पुलिस के 112 एवं चाइल्डलाइन के 1098 नंबरों से भी अवगत कराया गया जिला मिशन समन्वयक DHEW मिशन शक्ति सुरात आनंद ने री पोर्टल के बारे में बताया कि यह एक ऑनलाइन

प्लेटफॉर्म है जो महिलाओं के लिए विभिन्न सेवाओं और संसाधनों को प्रदान करता है। यह पोर्टल महिलाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा, और सशक्तिकरण के बारे में जानकारी प्रदान करता है। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वूमन द्वारा महिलाओं के मुद्दों को हल करने और उनके सशक्तिकरण के लिए जिला स्तर पर उपलब्ध सेवाओं की जानकारी दी इस अवसर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी कंचन माला, महिला सुपरवाइजर संगीता रानी के साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ सैकड़ों महिलाएं एवं लड़कियां उपस्थित रहीं।

पिछड़ा आयोग के सदस्य सत्येन्द्र बारी ने गोद लिये प्राथमिक विद्यालय का किया औचक निरीक्षण



चंद्रौली। पिछड़ा आयोग के सदस्य सत्येन्द्र बारी ने सोमवार को कबीरपुर में स्थित अपने गोद लिए प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। पिछड़ा आयोग के सदस्य सत्येन्द्र बारी ने बताया कि लगातार पूरे प्रदेश में पिछड़े समाज के बीच

शिक्षा स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को ले कर दौरा कर रहे हैं। योगी सरकार की नीतियों को, विकास कार्यों की जानकारी को जोन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में सत्येन्द्र बारी ने अपने गोद लिये ग्राम कबीरपुर के प्राथमिक विद्यालय पहुंचे जहां उन्होंने बच्चों से वार्ता की

और शिक्षकों से पढ़ाई एवं अन्य सुविधाओं के बारे में वार्ता की। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें पुरस्कार दिये। शिक्षकों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए सम्मानित किया। बिहतर शिक्षा के लिए उन्होंने विद्यालय के प्रधानाचार्य उमेश प्रयासों सराहना भी किये।

सैकड़ों की संख्या में छात्र संगठन द्वारा गर्ल्स आवासीय कॉलेज छात्रावास संचालन कराने की मांग को लेकर किया आंदोलन

नारायणपुर/छत्तीसगढ़। (गोलू मरकाम)। लिखित रूप से आश्विन के बाद हटे छात्रांग जिला नारायणपुर में संचालित रमोतीन मडिया महिला कॉलेज की छात्रांग सैकड़ों की संख्या में उरवक के साथ कलेक्टर घेराव करने पहुंची। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में छत्तीसगढ़ के सभी जिले में आवासीय गर्ल्स कॉलेज की स्थापना की गई थी जिसके तहत नारायणपुर जिले में भी गर्ल्स कॉलेज का संचालन किया गया पर गर्ल्स कॉलेज जिले में संचालित तो किया गया पर आवासीय गर्ल्स कॉलेज जो विगत तीन वर्ष से संचालित हो रही है।



बच्चों के आवासीय महाविद्यालय की हॉस्टल संचालन नहीं होने से नारायणपुर जिले के आस पास से आ रहे ग्रामीण इलाके के छात्रांगों को किराए के मकान में रह कर कॉलेज आना जाना करना पड़ता है और अबूझमाड इलाके में अधिकतर व्यक्तियों की आय का साधन कृषि है जिसके चलते अपने बच्चों को वह स्कूल तक की शिक्षा गांव में ही करवा कर आगे की शिक्षा

ग्रहण कराने गांव से शहर महाविद्यालय की ओर भेजते हैं और उनको हॉस्टल नहीं मिल पाने से आधे से ज्यादा बच्चे पढ़ाई छोड़ कर गांव वापस चले जाते हैं। बी एस सी फाइनल में अध्ययनरत छात्रा मीनिका नेताम ने बताया कि वह लगातार जिला प्रशासन और महाविद्यालय प्राचार्य से छात्रांगों को रहने में हो रही परेशानियों को लेकर कई

बार अवगत कराया पर कोई रास्ता नहीं निकला रहा है जिससे हमारे कुछ साथी पढ़ाई छोड़ कर गांव पावस जाने को मजबूर हैं। जिला अध्यक्ष विजय सलाम ने बताया कि पूर्व भूपेश बघेल जी की सरकार में छात्रांगों को शिक्षा से मजबूर बनाने गांव से निकाल कर शहर में रह कर पढ़ाई कराने के उद्देश्य से आवासीय महाविद्यालय की घोषणा की थी जो संचालित होने भी शुरू हो गया एवं हॉस्टल का निर्माण भी पूर्ण हो चुका है उसके बाद भी प्रशासन हॉस्टल संचालित करने में रुचि नहीं दिखा रही जिससे हमारे अबूझमाड के बच्चियों को आवासीय छात्रावास की सुविधा नहीं मिल पा रही और वह वापस अपने गांव पढ़ाई छोड़ कर चले जा रहे हैं जो कि कहीं न कहीं छात्रांगों के अधिकार को मारा जा रहा है और अबूझमाड जनपद उपाध्यक्ष उमेश कर्मा ने बताया कि जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए अबूझमाड के बच्चे आगे आकर पढ़ाई करते हैं तो वह गांव के विकास में भी अपना योगदान देते हैं एक ओर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा सरकार चलाती है पर सर्व शिक्षा प्रदाय करती है में भाजपा सरकार फेल नजर आ रही है।

रामनगर में रामलीला प्रेमी सीताराम कसेरा का निधन



रामनगर। 02 दिसंबर को रामलीला प्रेमियों के श्रृंखला के प्रमुख स्तंभ रहे वरिष्ठ लीला प्रेमी बर्तन व्यवसाई सीताराम कसेरा जी का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे भाजपा नेता राहुल देव कसेरा के दाद थे। व्यापार मंडल कोषाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद कसेरा के पिता थे। सीतारामजी 08 वर्ष की अवस्था से ही निरंतर रामनगर की रामलीला के नेतृ थे। वे धोती कुर्ता भगवा साफा और पीढ़ा लेकर बिना जूता चप्पल के अमरवत लीला देखने का क्रम जारी रखते थे। उनकी इस प्रतिबद्धता और समर्पण ने उन्हें रामलीला प्रेमियों के बीच एक विशेष स्थान था।

नगवां पंचायत से अर्जुन सिंह ने पैक्स चुनाव में 109 वोटों से किया जीत हासिल



गया। गया जिले के गुरुवा प्रखंड अंतर्गत नगवां पंचायत से अर्जुन सिंह ने पैक्स चुनाव में 109 वोटों से जीत हासिल की वहीं उन्होंने बताया मैं इसके पहले भी पैक्स अध्यक्ष रह चुका हूँ और मुखिया

भी रह चुका हूँ पिछली बार मैं कुछ वोटों से हार गया था लेकिन इस बार जनता ने फिर हमें चुनकर भेजा है जो जनता के बीच कार्य बची हुई है और जो भी बिहार सरकार की योजना पैक्स के द्वारा है उसे पूरा किया जाएगा।